

*The Secret*  
रहस्य

राँडा बर्न

अनुवाद : डॉ. सुधीर दीक्षित



मंजुल पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड

first published in India by



Manjul Publishing House Pvt. Ltd.,  
10, Nishat Colony, Bhopal, INDIA-462 003  
Ph.: 91-755-4240340 Fax : 91-755-2736919  
E-mail: manjul@manjulindia.com  
Website : www.manjulindia.com

# जैसा ऊपर, वैसा नीचे जैसा भीतर, वैसा बाहर

- द इमेराल्ड टेबलेट लगभग 3000 रु.पू.

# विषय-सूची

यह पुस्तक आपको समर्पित है

आशा करती हूँ कि 'रहस्य' आपके पूरे जीवन को  
प्रेम और खुशियों से भर देगा।

आपके और पूरी दुनिया के  
लिए मेरी यही कामना है।

प्रस्तावना	ix
आभार	xiii
रहस्य प्रकट होता है	1
रहस्य का सरलीकरण	27
रहस्य का प्रयोग कैसे करें	45
सशक्त प्रक्रियाएँ	71
धन का रहस्य	95
संबंधों का रहस्य	113
सेहत का रहस्य	125
संसार का रहस्य	141
आपका रहस्य	155
जीवन का रहस्य	177
जीवनियाँ	185

## *प्रस्तावना*

एक साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज्यादा थी, मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफ़ी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मेरी इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा।

मुझे अचानक एक महान रहस्य - जीवन के रहस्य - की झलक मिली। झलक सौ साल पुरानी एक पुस्तक में मिली, जो मेरी बेटी हेली ने मुझे दी थी। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे : प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बीथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन, आइस्टीन।

हैरानी से मैंने खुद से पूछा, “हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है?” इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धधकने लगी। फिर मैं वर्तमान युग के उन लोगों को खोजने में जुट गई, जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था।

वे एक-एक करके प्रकट होने लगे। मैं जैसे चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खिंचे चले आए। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने आप दूसरे टीचर की कड़ी मिलती चली गई, जैसा

आदर्श जंजीर में होता है। अगर मैं भटककर ग़लत रास्ते पर पहुँच जाती थी, तो कोई दूसरी चीज़ मेरा ध्यान खींच लेती थी और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता था। अगर मैं इंटरनेट सर्च करते समय “संयोगवश” ग़लत लिंक दबा देती थी, तो वह लिंक मुझे किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर ले जाती थी। कुछ ही हफ्तों में मैंने इस रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और इसके वर्तमान प्रयोगकर्ताओं को भी खोज लिया।

फ़िल्म द्वारा इस रहस्य को दुनिया तक पहुँचाने का सपना मेरे दिमाग में बैठ गया। अगले दो महीनों तक मेरी फ़िल्म और टेलीविज़न प्रॉडक्शन टीम ने यह रहस्य सीखा। टीम के हर सदस्य के लिए इस रहस्य का ज्ञान अनिवार्य था, क्योंकि हम जो काम करने की कोशिश कर रहे थे, वह इसके ज्ञान के बिना असंभव था।

उस समय तक एक भी टीचर ने इस फ़िल्म के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम रहस्य जानते थे। पूरे विश्वास के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुँच गई, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स वहाँ रहते थे। सात हफ्ते बाद द सीक्रेट की टीम ने अमेरिका के पचपन महानतम टीचर्स की रिकॉर्डिंग कर ली और 120 घंटे लंबी फ़िल्म तैयार कर ली। द सीक्रेट फ़िल्म बनाते समय हमने हर क़दम, हर साँस के साथ रहस्य को इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था, जैसे हम हर चीज़ और हर व्यक्ति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हों। आखिरकार आठ महीने बाद द सीक्रेट फ़िल्म रिलीज़ हो गई।

जब फ़िल्म दुनिया भर में लोकप्रिय हुई, तो चमत्कार की कहानियों की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने हमें बताया कि रहस्य का प्रयोग करने के बाद उन्हें दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और बीमारी से छुटकारा मिल गया था दुर्घटना के बाद वे पहली बार चल पाए; यहाँ तक कि मृत्युशैया पर पड़े होने के बावजूद ठीक हो गए। हमें हज़ारों प्रसंग बताए गए कि हमारी फ़िल्म में बताए गए रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने किस तरह बहुत बड़ी रकम और डाक में अप्रत्याशित चेक प्राप्त किए। इस रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने आदर्श

मकान, जीवनसाधी, कार, नौकरियाँ और प्रमोशन पाए हैं। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के भीतर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति-पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियाँ भी हमें मिलीं, जिससे बच्चों को दोबारा सद्भाव का माहौल मिल सका।

हमें मिलने वाली सबसे अच्छी कहानियाँ बच्चों के बारे में थीं। हमें बताया गया कि किस तरह बच्चों ने रहस्य का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित कर लिया, जिनमें अच्छे ग्रेड और दोस्त शामिल थे। रहस्य ने डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वे अपने मरीज़ों के साथ अपना ज्ञान बाँटें। इसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के साथ, हेल्थ क्लब्स को अपने ग्राहकों के साथ, सभी चर्चों और आध्यात्मिक केंद्रों को अपने सदस्यों के साथ अपना ज्ञान बाँटने के लिए प्रेरित किया। दुनिया भर के घरों में सीक्रेट प्रार्थियाँ आयोजित की गईं, जहाँ लोगों ने अपने शियजनों और परिवारों को यह रहस्य सिखाया। लोगों ने इस रहस्य के प्रयोग से हर तरह की चीज़ को आकर्षित किया है – जिनमें एक खास पंख से लेकर एक करोड़ डॉलर तक की रकम शामिल है। यह सब फ़िल्म के रिलीज़ होने के चंद महीनों के भीतर ही हो गया।

द सीक्रेट बनाने के पीछे मेरा इरादा दुनिया भर के खरबों लोगों को सुखी बनाना था – और है। हमारी टीम हर दिन उस इरादे को साकार देख रही है। हमें दुनिया भर के हर उम्र, जाति और देश के हज़ारों लोगों की चिट्ठियाँ मिलती हैं, जिनमें वे रहस्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस ज्ञान के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ रहते हैं, द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वह चीज़ दे सकता है, जो आप चाहते हैं।

इस पुस्तक में चौबीस अद्भुत टीचर्स को फ़ीचर किया गया है। उनके शब्द अलग-अलग समय अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में फ़िल्माए गए हैं, लेकिन वे सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस पुस्तक में रहस्य के टीचर्स

के संदेश के अलावा रहस्य के प्रयोग की घमत्कारी कहानियाँ भी दो गई हैं। इसमें मैंने अपने द्वारा सीखे गए सभी आसान रास्ते, टिप्प और शॉटकट्स बताए हैं, ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें।

पूरी पुस्तक में मैंने कई जगहों पर “आप” शब्द को बोल्ड किया है। ऐसलिए क्योंकि मैं आपको यह महसूस कराना चाहती थी कि मैंने यह पुस्तक आपके लिए ही लिखी है। “आप” शब्द बोल्ड होने का मतलब यह है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ। मेरा इरादा यह है कि आप इन पन्नों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि यह रहस्य आपके लिए ही प्रकट किया गया है।

इन पन्नों को पढ़ने और रहस्य को सीखने के बाद आप यह जान जाएँगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। आप जान जाएँगे कि आप सचमुच कौन हैं। आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएँगे, जो आपका इंतजार कर रही है।

## आभार


आत्मीय कृतज्ञता के साथ मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरी ज़िदगी में आया और जिसने अपनी उपस्थिति से मुझे प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखा।

मैं उन लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी यात्रा और इस पुस्तक को सफल बनाने में अपना प्रबल समर्थन और योगदान दिया :

अपने ज्ञान, प्रेम और दैवी संदेश को उदारता से बताने के लिए मैं द सीक्रेट के फ्रीचार्ड सहलेखकों की आभारी हूँ : जॉन असाराफ, माइकल बर्नार्ड बेकविथ, ली ब्रोअर, जैक कैनफील्ड, डॉ. जॉन डेमार्टिनी, मेरी डायमंड, माइक ड्ली, बॉब डॉयल, हेल इवोस्किन, मॉरिस गुडमैन, डॉ. जॉन ग्रे, डॉ. जॉन हेजलिन, बिल हैरिस, डॉ. बेन जॉनसन, लॉरल लैंजमियर, लीसा निकोल्स, बॉब प्रॉक्टर, जेस्स रे, डेविड स्कर्मर, मार्सी शिमांक, डॉ. जो विटाल, डॉ. डेनिस वेटली, नील डोनाल्ड वैल्श और डॉ. फ्रेड एलन वोल्फ।

मैं द सीक्रेट की प्रॉडक्शन टीम के कुछ बहुत अनूठे लोगों की भी आभारी हूँ: पॉल हैरिंगटन, र्लैंडा बेल, स्काई बर्न और निक जॉर्ज। साथ ही इन हैरिंगट, डेनियल केर, डेमियन कोरबॉय और उन सभी की भी, जो द सीक्रेट फिल्म बनाने की यात्रा में हमारे साथ रहे।

# रहस्या प्रकट होता है



बॉब प्रॉक्टर

दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मानवशक्ति

रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है :  
खुशी, सहत और दौलत।



डॉ. जो विटाल

मेटाफ़िज़िशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ आर लेखक

आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं।

जॉन असाराफ़

उद्यमी और धनार्जन विशेषज्ञ

हम जिस चीज़ को पाने का दुनाव करें, उसे पा सकते हैं।

इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह चीज़ कितनी बड़ी है।

आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का विजेन्स बनाना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? अहम् सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं?

**डॉ. जॉन डेमार्टिनी**

दाशनिक, कायरोप्रैक्टर, उपचारक और व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ  
यह जीवन का महान रहस्य है।

**डॉ. डेनिस वेटली**

मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्षमता प्रशिक्षक

अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था, वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे, और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम-धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी ज़िंदगी इसी चक्री पर चलती थी और उनके पास ज़रा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था।

इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जाग्रत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुँचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की।

**माइकल बर्नार्ड बेकविथ**

भविष्यद्वष्टा और अगेप इंटरनेशनल स्पिरिच्युअल सेंटर के संस्थापक

मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय

चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार के चमत्कार।

**जैक कैनफील्ड**

लेखक, शिक्षक, जीवन मार्गदर्शक और प्रेरक वक्ता



यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है।

## रहस्य क्या है?

**बॉब प्रॉक्टर**

आप शायद यह सोच-सोचकर हैरान हो रहे होंगे, “आखिर यह रहस्य है क्या?” मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है।

हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आती है, हम लोगों को चाँद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं।

आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहाँ रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है!

रहस्य आकर्षण का नियम है!

आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

“आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु - एक शक्ति है।”

**ग्रैंटिस मल्लरोड** (1834-1891)

दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है।

विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुड्विग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो द विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथैगॉरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइज़ैक न्यूटन, जोहानन वोल्फँग वॉन गेटे और विक्टर हूयूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी क़ायम है।

यह रहस्य हिंदू धर्म, हर्मीटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बैबिलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों-युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालाँकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच

हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था।

नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा।

यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तथ्य करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सूक्षिय करते हैं।

1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, “यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है, जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है।”



### बॉब प्रॉक्टर

हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बैबिलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालाँकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था।

इतिहासकार प्राचीन बैबिलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणान करते नहीं थकते हैं। विश्व के सात आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद ज्ञामों में से एक बन गई।

## बॉब प्रॉक्टर

क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 प्रतिशत लोग लगभग 96 प्रतिशत धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व-निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है।

इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच-समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या न हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है।

रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है : आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गँवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ ? उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन हुआ यह था कि चूँकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गँवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया, जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गँवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी बजह से उन्होंने दौलत गँवा दी। बहरहाल, दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर ग़ायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया। और दौलत लौट आई।

आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों।

## समान चीज़ों समान चीज़ों को आकर्षित करती है

### जॉन असाराफ

आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा।

आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं! आपमें ऐसी चुंबकीय शक्ति है, जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज्यादा शक्तिशाली है और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है।

### बॉब डॉयल

लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ मूलभूत रूप से, आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ों समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं।

आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा :

आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हों, जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा, वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार

सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएँगे कि स्थिति पहले से ज्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, उतने ही ज्यादा परेशान होंगे।

हो सकता है, आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो। हो सकता है, कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हों। वह गाना आपके दिमाग में बार-बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी न हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे, इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते-जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया।

## जॉन असाराफ़

इसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है, जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं।


आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी, जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं। चूँकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, इसलिए यह आसनी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे

हक्कीकत में बदल चुके हैं। अब तक! अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं।

## बॉब प्रॉफ्टर

अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें, तो वह आपके हाथ में आ जाएगी।

अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें, तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी।



## माइक डूली

### लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता

यह सिद्धांत संक्षेप में पाच-सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं।

इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं! यह सूत्र बार-बार दोहराएँ और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उत्तर जाने दें। आपके विचार वस्तुएँ बन जाते हैं!

## जॉन असाराफ़

ज्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेन्सी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार-बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवनसाथी पाने की ... अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं, तो आप उस फ्रीक्वेन्सी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं।



## डॉ. जो विटाल

विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं, जो उस जैसी चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करते हैं।

“प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। परिणामस्वरूप, मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा।”

**चार्ल्स हान्डेल (1866-1949)**

विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेन्सी होती है। जब आप सोचते हैं, तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुँच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेन्सी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ सोत तक वापस लौटती है। और वह स्रोत आप हैं।

इसके बारे में इस तरह से सोचें : हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टॉवर एक फ्रीक्वेन्सी पर प्रसारण करता है, जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हममें से ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेन्सी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेन्सी पर चैनल सेट करते हैं, तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेन्सी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं, तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेन्सी पर सेट कर देते हैं।

आप मानवीय ट्रांसमिशन टॉवर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टॉवर से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन

टॉवर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेन्सी शहरों, देशों, संसार के पार पहुँच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गैंगने लगती है। और उस फ्रीक्वेन्सी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं!

आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं, वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं! आपके विचार फ्रीक्वेन्सी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेन्सी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं, तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेन्सी बदल दें।

“मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं।”

**चार्ल्स हान्डेल**



## बॉब प्रॉफ्टर

अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे, तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार, हर इंसान के मामले में काम करता है।

जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं, तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है। लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, “हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है?”

## बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें

### जॉन असाराफ़

यही समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार-बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं।

लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं छूक नहीं होती है।

मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है, जो प्लेग से ज्यादा भयंकर है। यह “नहीं चाहता” की महामारी है। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं, जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हे वे “नहीं चाहते।” लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देरी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है, जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वह सोचना और बोलना है, जो आप चाहते हैं।

### बॉब डॉयल

आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा; आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज़ के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड में

यह संकेत भेज रहे हैं, “मैं इतने भारी कर्ज़ से बुरा महसूस कर रहा हूँ।” आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम : आपको यहीं चीज़ और ज्यादा मिलेगी।

आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है।



### लीसा निकोल्स

#### लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तीकरण विशेषज्ञ

आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा – हर बार। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हे आप नहीं चाहते हैं – “मैं देर से नहीं पहुँचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुँचना चाहता” – तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता है कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार-बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं।

जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम “नहीं” या “नहीं चाहता” या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाँप

नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो आकर्षण का नियम यह सुनता है :

“मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ नहीं छलकाना चाहता हूँ।”

“मैं इन कपड़ों पर कोई चीज़ छलकाना चाहता हूँ और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ।”

“मैं बुरी हेयरकट नहीं चाहता हूँ।”

“मैं बुरी हेयरकट चाहता हूँ।”

“मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए।”

“मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए।”

“मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आए।”

“मैं चाहता हूँ कि वह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आए।”

“मैं नहीं चाहता कि रेस्टराँ वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें।”

“मैं चाहता हूँ कि रेस्टराँ वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें।”

“मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटें।”

“मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटें।”

“मैं इस काम को नहीं संभाल सकता।”

“मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ, जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता।”

“मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता।”

“मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ।”

“मैं बहस नहीं करना चाहता।”

“मैं और ज्यादा बहस करना चाहता हूँ।”

“मुझसे इस तरह मत बोलो।”

“मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें।”

आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं - बात खत्म!

### बॉब प्रॉक्टर

आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर धकीन करते हों या नहीं, चाहे आप इसे समझते हों या नहीं।

आकर्षण का नियम सूजन का नियम है। क्वांटम भौतिकशास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सूजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जानें या न जानें, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय स्वप्न से शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतों ला सकते हैं।

### लीसा निकोल्स

यह उतना ही काम करता है, जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतर्रीन प्रक्रिया है। कोई पॉज़ि बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहता है।

चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, हम ज्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं, तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं, तो आप सोच रहे हैं। हममें से ज्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है, जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले के हमारे आखिरी विचारों पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ



सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है, तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है।

आप इस समय जो सोच रहे हैं, उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होगा।

प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही यह नियम भी बिलकुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएँगे, वही काटेंगे! आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे, वह आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी।

अगर आप शिकायत कर रहे हैं, तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम

करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियाँ ले आएगा, जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं, जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे।

आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं।



बिल हैरिस

शिक्षक और सेंटरपाइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट  
के संस्थापक

मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था, जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकता था।

रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कट्टु सच्चायाँ बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामृद्धिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था, क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था, तो उसे होमोफोबिक लोग धेर लेते थे, जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड-अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड-अप कॉमेडी करता था, तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे।

मैंने उसे बताया कि वह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिन्हें वह नहीं चाहता है। मैंने उसका इमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, “इसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीजें बता रहे हो, जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है, तो वह चीज़ ज्यादा जल्दी होती है!”

उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फ़ैसला किया कि वह उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले छह से आठ हफ्तों में जो हुआ, वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस के जो कर्मचारी उसे सताते थे, उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया, या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मज़ा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड-अप कॉमेडी करता था, तो लोग तालियाँ बजाते थे और कोई उसे तंग नहीं करता था!

उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई, क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया, जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था।

रॉबर्ट की जिंदगी इसलिए बदली, क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल लिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेन्सी प्रेषित की। ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेन्सी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थीं, चाहे स्थिति कितनी ही असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेन्सी बदल गई और उसकी जिंदगी की तस्वीरें बदल गईं।

आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हों, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी

जिंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है!

## आपके मस्तिष्क की शक्ति

### माइकल बर्नार्ड बेकविथ

 आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं, जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हों या अचेतन। यही मूल बात है।

आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हों या न हों, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं! ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में, जो आपके विचारों में है।

### डॉ. जॉन डेमार्टिनी

 बहुत ग्रौर से देखने पर आप पाएँगे कि यह रहस्य यानी हमारे दिमाग़ और इरादे की शक्ति रोज़मर्रा की जिंदगी में चारों तरफ़ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आँखें खोलकर देखना भर है।

### लीसा निकोल्स

आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आस-पास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्ज़, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय। और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर


खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं, उसे हक्कीङ्गत में बदल देते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में धूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है।

यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार छुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है।

## डॉ. फ्रेड एलन वोल्फ़

क्वांटम भौतिकशास्त्री, लेक्चरर और पुरस्कार-विजेता लेखक

मैं कपोलकल्पना या काल्यनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यह बात ज्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ।



क्वांटम फ़िज़िक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है, जिसके बारे में सोचा जा रहा है।

अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टॉवर बनने की उपमा के बारे में सोचें, तो आपको डॉ. वोल्फ़ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें ज़िंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ़ अपने जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल

योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास ज़रा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आस-पास की दुनिया को आकार दे रहा है।

पिछले अस्सी सालों में क्वांटम भौतिकशास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जिनमें कारनेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णमूर्ति और बुद्ध शामिल हैं।

## बॉब प्रॉक्टर

अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप विजली को नहीं समझते हों, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि विजली कैसे काम करती है। लेकिन मैं यह बात जानता हूँ : आप विजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं!

## माइकल बनर्ड बेकविथ

अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सेकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है।

सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ लाने के लिए बहुत से नकारात्मक विचारों और लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल, अगर आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे, तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएँगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे, तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में और ज्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे तथा उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फ़ैसला करें कि आप सिर्फ़ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमज़ोर हैं।

## लीसा निकोल्स

ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फ़ासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता, तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फ़ायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनवाही चीज़ के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है।

अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यहीं सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों, जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ़ीक्वेन्सी प्रेषित कर सकते हैं, इसी समय!



## डॉ. जो विटाल

अपने विचारों के बारे में जागरूक बनें, अपने विचार सावधानी से बुर्ने और इस प्रक्रिया में मज़े लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइक्रो एंजेलों हैं। आप जिस डेविड की मृत्यु बना रहे हैं, वह आप खुद हैं।

अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था, तब तक मुझे इहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस तीन से दस मिनट काफ़ी हैं। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है।

अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं, “मैं अपने विचारों का मालिक हूँ।” इसे बार-बार दोहराएँ और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार-बार दोहराते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं।

आपको अब वह ज्ञान मिल रहा है, जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही “आपके सबसे भव्य संस्करण” की फ़ीक्वेन्सी पर मौजूद है। फ़ैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ़ीक्वेन्सी भेजें; आपका सपना साकार हो जाएगा।

## रहस्य लक्षण

- आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है।
- आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजों समान चीजों को आकर्षित करती हैं, इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं, तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
- विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेन्सी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं, तो वे ब्रह्मांड में पहुँचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेन्सी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानी आप तक लौटकर आती है।
- आप मानवीय ट्रांसमिशन टॉवर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेन्सी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं, तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेन्सी बदल लें।
- आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा।
- आपके विचार वस्तुएँ बन जाते हैं।

## रहस्य का सरलीकरण

### माइकल बर्नार्ड बेकविथ

हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं, तो इस बात से कोई क्रङ्ग नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इसान हैं या बुरे, आप ज़मीन से ज़खर टकराएँगे।

आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। यह सटीक और अचूक है।

### डॉ. जो विटाल

इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं, उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं, जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फ़ौरन कह सकते हैं, “मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था। मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था, जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैंने कर्ज़ के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था।”

मैं यहाँ आपकी बात काटकर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है।

अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं, तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएँ याद आ जाती हैं, जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेन्सी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेन्सी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेन्सी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमज़ोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं।

आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ़ क्रिस्मस की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएँ किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है?

ये आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तक़दीर आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी में सिर्फ़ अच्छी चीज़ें ही आ सकती हैं, क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद हैं और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे, वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा।

कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती, जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएँ।

## बॉब डॉयल

हममें से ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएँ हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खिंची चली आती है।


कोई भी जान-बूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएँ कैसे हुई होंगी। सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे।

## डॉ. जो विटाल

अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है, “ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी? यह तो बड़ा मुश्किल काम है।” ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है।

मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं, जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें। आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा।

## मार्सी शिमाँफ़



लेखक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन साठ हजार विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी साठ हजार विचारों को नियन्त्रित करने की कोशिश करेंगे, तो सोचें कि आप कितने थक जाएंगे? सौभाग्य से एक ज्यादा आसान

तरीका है : भावनाएँ। हमारी भावनाएं हम बता देतों हैं कि हम क्या सोच रहे हैं।

भावनाएँ बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएँ आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है, और इसमें आपकी भावनाएँ शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं।

## बॉब डॉयल

भावनाएँ अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं।

आपकी भावनाएँ आपको फ़ौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें, जब आपकी भावनाएँ अचानक गेता खाने लगी थीं - ऐसा शायद तब हुआ होगा, जब आपने कोई बुरी ख़बर सुनी थी। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएँ आपको फ़ौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं।

आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर गौर करना सीखें। संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं।

## लीसा निकेल्स

आपके पास दो तरह की भावनाएँ होती हैं : अच्छी भावनाएँ और बुरी भावनाएँ। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, शुस्सा,

द्वेष, अपराधबोध ... ऐसी भावनाएँ, जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती हैं। ये बुरी भावनाएँ हैं।

कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ़ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यक़ीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से यह पूछ लें, “मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ?” आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।

आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नियम के खिलाफ़ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है, क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं, जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं।

आपके विचार आपकी फ़ीक्वेन्सी तय करते हैं और आपकी भावनाएँ आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ़ीक्वेन्सी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ़ीक्वेन्सी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे।

जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल कह रहे हैं, “मेरे जीवन में ऐसी और ज्यादा परिस्थितियाँ लाओ, जिनसे मुझे बुरा महसूस हो। उन्हें लाओ।”

## लीसा निकोल्स

इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएँ भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है, क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम। काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं, तो आप अपनी ओर ज़्यादा अच्छी भावनाओं और चीजों को आकर्षित करते हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है।

## बॉब डॉयल

यह सचमुच बेहद आसान है। “मैं इस बक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ?” अब बताएँ, आप कैसा महसूस करते हैं? “मैं अच्छा महसूस करता हूँ。” बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें।

अच्छा महसूस करते बक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे, पा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ़ एक पेंच है : आपको अच्छा महसूस करना होगा। ज़रा सोचें, दरअसल आप यहीं तो चाहते हैं! नियम सचमुच आदर्श है।

## मार्सी शिमोफ़

अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन, हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं, वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमत्रित कर रहे हैं, जो आपको चिंतित करें या डराएँ।

अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेन्सी भेज रहे हैं, जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उन पलों को जकड़ लें और उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

आइए, अब एक क्रदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं?

## जैक कैनफ़ील्ड

 हमारी भावनाएँ हमें इस बात का फ्रीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं।

याद रखें, आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण हैं। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं, तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुँच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेन्सी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेन्सी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेन्सी पर हैं। आपकी भावनाएँ आपका फ्रीक्वेन्सी फ्रीडबैक मैकेनिज्म हैं!

जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है, “आप अच्छे विचार सोच रहे हैं।” इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है, “आप बुरे विचार सोच रहे हैं।”

अगर आप इस बक्त बुरा महसूस कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल यह कह रहा है, “चेतावनी! अपने विचारों को फौरन बदलो।

नकारात्मक फ्रीक्वेन्सी दर्ज हुई है। फ्रीक्वेन्सी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। चेतावनी!"

अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें, तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेन्सी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएँ खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे, तो आप जान जाएँगे कि आप फ्रीक्वेन्सी बदलकर नई फ्रीक्वेन्सी पर पहुँच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएँ पहुँचाकर इसकी पुष्टि कर दी है।

## बॉब डॉयल

आपको ठीक वही मिल रहा है, जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं; वह नहीं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं।

इसीलिए घटनाएँ बार-बार होती हैं। अगर सुबह-सुबह पलग से उतरते समय किसी के अँगुठे में चोट लग जाती है, तो दिन भर इसी तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। उस व्यक्ति को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन - और ज़िंदगी को बदल सकता है।

अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएँ महसूस करते हैं, तो जब तक आप किसी चीज़ को अपना मूँड बदलने की अनुमति न दें, तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा वैसी ही ज्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे, जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे।

हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे, जब एक के बाद एक कई चीज़ें गड़बड़ हों। चाहे आपको इस बात का एहसास हुआ हो या न हुआ हो, यह चेन रिएक्शन सिर्फ़ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक

बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेन्सी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएँ महसूस करके प्रतिक्रिया की, तो आपने वैसी ही अन्य बुरी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएँ अक्सर उसी तरह की ज्यादा चीज़ों को आकर्षित करती हैं और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी, जब तक कि आप अपनी इच्छाशक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेन्सी से हटा न लें।

आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेन्सी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेन्सी को जकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें आपकी ज़िंदगी में भेज देगा।

अब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं।

आप अपनी मनचाही चीज़ के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज्यादा सशक्त फ्रीक्वेन्सी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं।

## माइकल बनर्ड बेकविथ

आप इसी समय स्वस्य महसूस कर सकते हैं। आप समुच्च महसूस कर सकते हैं। आप अपने चारों तरफ़ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में न हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा, क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं।

तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जितना

आप चाहते हैं, तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएँ और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आँखें बंद करके (ताकि व्यवधान न हो) अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर एक मिनट तक मुस्कराना है।

## लीसा निकोल्स

आपके विचार और भावनाएँ आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा। पक्की गारंटी है!

गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सुअरों को उड़ाते देखा हो, क्योंकि उस दिन सुअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया था। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं, तो इसके प्रभाव ज़बरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपके जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं।

आपके पास हर चीज़ को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं।

“आप राह में चलते-चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं।”

## विस्तृत व्याचिक

### डॉ. जो विटाल

अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में सकेत की तरह जाती है और आपकी ओर उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करने लगती है। इसलिए आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएँगी और लगातार ज्यादा ऊपर पहुँचाएँगी।


## बॉब प्रॉक्टर

अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं? बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगें - इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचें। शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें, जिससे आप सच्चा प्यार करते हों और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रख लें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज को दिमाग में आने ही न दें। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे।

अपने पास कुछ मनोभाव-परिवर्तकों की सूची तैयार रखें। मनोभाव-परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीजों से है, जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं। जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज-मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कूठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव-परिवर्तक सूची पर नज़र डालें और

उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग चीज़ें आपके मनोभाव को बदलेंगी, इसलिए अगर कोई चीज़ काम न करे, तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ़ीक्वेन्सी और स्वयं का फ़ोकस बदलने में मुश्किल से एक-दो मिनट का समय लगता है।

## प्रेम : महानात्मा भाव



जेम्स रे

दाशीनिक, वक्ता, लेखक और समृद्धि तथा  
मानवीय क्षमता कार्यक्रमों के निर्माता

अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं, क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाएंगी। यह कितना बढ़िया उपहार है!

“विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है।”

## चार्ल्स हालेल

प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ़ीक्वेन्सी है, जिसे आप प्रेषित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा।

दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं, तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ़ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं, तो अंदाज़ा लगाएँ, इससे किसे लाभ होगा - आपको! इसलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है, तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि आप सबसे ऊँची फ़ीक्वेन्सी पर हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करेंगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति का दोहन करेंगे।

“जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जर्बदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है, जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजेय बन जाते हैं।”

## चार्ल्स हालेल



## मार्सी शिमॉफ़

जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच क़ाबू रखने लगते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समृद्धी शक्ति है।

मार्सी शिमोफ़ ने महान अलबर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है : “कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है, ‘क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है?’”

आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है, “हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है।” क्यों? क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं, तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने यह सशक्त सवाल इसलिए पूछा था, क्योंकि वे रहस्य जानते थे। वे जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ़ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था।

आप आइंस्टीन के इरादे को और आगे तक ले जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, “यह ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीज़ों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज़ में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी सभी ज़रूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है।” जान लें, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है!

## जैक कैनफील्ड

जब से मैंने रहस्य सीखा है और अपने जीवन में उतारा है, मेरी जिंदगी जैसे जादू से बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं पैतालीस लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्ती है, जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टियाँ मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खेजी यात्राओं में गया हूँ। मैंने सफारी यात्राएँ की हैं। यह सब इसलिए हुआ और आज भी हो रहा है, क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता था।

## बॉब प्रॉक्टर

जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे, तो जिंदगी सचमुच ज़बर्दस्त बन सकती है और इसे बनना चाहिए और यह ज़रूर बनेगी।

यह आपकी जिंदगी है और यह इंतज़ार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हों कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, “जिंदगी बहुत आसान है! जिंदगी बहुत अच्छी है! हर अच्छी चीज़ मेरी ओर आ रही है!”

आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतज़ार कर रही है कि आप उसे खोजें। वह सच्चाई यह है : आप उन सभी अच्छी चीज़ों के हक्कदार हैं, जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीज़ें आपका जन्मसिद्ध अधिकार हैं! आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औज़ार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है! आपके भव्य स्वरूप में आपका स्वागत है

## रहस्य संक्षेप

- आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी नियम है।
- जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आहवान न करें, तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती।
- आप क्या सोच रहे हैं; यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएँ मूल्यवान साधन हैं। वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं।
- बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है।
- आपके विचार आपकी फ्रीक्वेन्सी तय करते हैं और आपकी भावनाएँ आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेन्सी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं, तो आप ज्यादा बुरी चीज़ों आकर्षित करने की फ्रीक्वेन्सी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
- मनोभाव-परिवर्तक, जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेन्सी बदल सकते हैं।
- प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेन्सी है, जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है।

# रचना का प्रयोग कैसे करें

आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीतिकथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में ज़िंदगी की सच्चाई छिपी है।



## जेस रे

अलादीन और उसके विराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन विराग उठाता है और उसकी धूल साफ़ करता है, तो जिन्न फौरन बाहर निकल जाता है। जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है :

“आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है!”

कहानी में कहा गया है कि जिन्न तीन इच्छाएँ पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएँगे, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएँ करेंगे, वे सब पूरी होंगी।

एक इच्छा के बारे में सोचें।

अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज़ माँगनी होती है। फिर ब्रह्मांड जिन्न बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग-अलग नाम दिए हैं - आपका रक्षक देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप। हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं, लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज़ है, जो हमसे ज्यादा बड़ी है। और जिन्न हमेशा एक ही बात कहता है :

“आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है!”

यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिन्न ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन्न आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, उसे यह जिन्न हमेशा सुन रहा है। जिन्न मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसे पाना चाहते हैं! यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं, उसे पाना चाहते हैं! यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज़ पर काम करते हैं, उसे पाना चाहते हैं! आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन्न यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन्न कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन्न व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फ़ौरन सक्रिय कर देता है।

## रचनात्मक प्रक्रिया

रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के तीन आसान कदम कौन से हैं।

## कदम 1 : माँगें

### लीसा निकोल्स

पहला कदम माँगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है।

### बॉब प्रॉक्टर

आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएँ और उस चीज़ को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, “मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि...” और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं।

आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ़ीक्वेन्सी भेजेंगे, तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद ज़िंदगी में पहली बार यह पता लगाएँ कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएँ कि आप क्या चाहते हैं?

माँगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए माँगने की आवत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो, लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हों कि किस राह पर जाएँ, तो मार्गदर्शन माँगें! आपको ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की ज़रूरत नहीं है। बस माँग लें!

## डॉ. जो विटाल

यह सचमुच मङ्गेदार है। यह तो वही बात हो गई, जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इसके पने पलटते हैं और कहते हैं, “मैं इस घटना को पसंद करूँगा! मैं उस चीज़ को पसंद करूँगा! मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा!” आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है।

आपको बार-बार माँगने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार माँगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ़ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुँचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ़ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला क्रदम सिर्फ़ इस बारे में स्पष्ट होता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग़ में स्पष्ट कल्पना कर ली है, तो आपने माँग लिया है।

## क्रदम 2: यकीन करें

### लीसा निकोल्स

दूसरा क्रदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना।

आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे माँगा है, उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर दे देते हैं, तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है, वह आपको मिल ही जाएगी।

“चीज़ों को इस तरह देखें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ों इसी वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हों। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें, जैसे वे आपकी हो चुकी हैं, आप उनके हक्कदार हैं और मालिक हैं।”

**रार्बर्ट कॉलिन्स** (1885-1950)

जिस पल आप माँगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है, जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हों। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुँचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें। अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है, तो आप उस चीज़ के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ़ीक्वेन्सी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बर्दस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ मिल जाए।

जब आप वैकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वैकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक

और कार या मकान नहीं ख़रीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना माल लेते हैं। इसे ही यक़ीन करने की भावना कहते हैं। यक़ीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें, जिन्हें आप चाहते हों और यक़ीन करें कि वे आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे, तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा, ताकि आपको अपनी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए।

आप यक़ीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुँच सकते हैं? यक़ीन करने का नाटक करें। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें, जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे आप इस बात पर यक़ीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन्हें आपके माँगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। जिन्हें तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए माँगने के बाद भी आपको यक़ीन रखने की ज़रूरत होती है। आस्था रखें। आपको वह चीज़ मिल चुकी है, इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यक़ीन करते हैं कि वह चीज़ आपको मिल रही है, तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएँ!

“आप जो चाहे पा सकते हैं - बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हों। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है, उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा खोल लेते

हैं, ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके।”

## रॉबर्ट कॉलिन्स

### डॉ. जो विटाल

 ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुँचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा।

### जैक कैनफील्ड

 हममें से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है, जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज़ कैसे प्रकट होगी।

### बॉब प्रॉक्टर

 अगर आप बस थोड़ा शोध करें, तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज़ हासिल की है, उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है।

### डॉ. जो विटाल

 आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा।

यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुँचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेन्सी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यह यक़ीन नहीं है कि वह चीज़ पहले से ही

आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है।

## बॉब प्रॉक्टर

काम कैसे होगा, आप यह बात नहीं जानते हैं। यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा।

## लीसा निकोल्स

जब हमें माँगी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो ज्यादातर मामलों में हम कृंठित हो जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं। हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है। इसलिए शंका को विश्वास में बदल लें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। “मैं जानता हूँ कि वह चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है।”

## क्रदम 3 : पाठ्य

## लीसा निकोल्स

प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी क्रदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएँ महसूस करें। उसी तरह महसूस करें, जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें।

## मार्सी शिमाँफ

इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेन्सी पर रख रहे हैं, जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

 यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज़ में यकीन करते हैं, लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति न हो कि आप अपनी मनचाही चीज़ को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है।

एक बार माँगें। फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं। और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप पाने की फ्रीक्वेन्सी पर हैं। आप सारी अच्छी चीज़ों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेन्सी पर हैं और आपको माँगी हुई चीज़ मिल जाएगी। ज़ाहिर है, आप सिर्फ वही चीज़ माँगेंगे, जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना? इसलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेन्सी पर ले आते हैं, तो आप उसे पा लेंगे।

खुद को उस फ्रीक्वेन्सी तक पहुँचाने का एक तेज़ तरीका यह कहना है, “मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तामाम अच्छी चीज़ें इसी समय मिल रही हैं। मैं (यहाँ अपनी इच्छा भर लें) इसी समय पा रहा हूँ।” और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें, जैसे आपने उस चीज़ को बाक़री पा लिया हो।

मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी में ज्ञार्दस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज़ महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और माँगी हुई चीज़ मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज़ को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती है कि वह चीज़ उसे कैसे, कब या कहाँ मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज़ प्रकट हो जाती है।

तो इसी समय अच्छा महसूस करें।

## बॉब प्रॉक्टर

जब आप किसी कल्पना को हक्कीकत में बदल लेते हैं, तो आप ज्यादा बड़ी कल्पनाएँ करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है।

“आप प्रार्थना में जो भी माँगेंगे, यकीन करने पर उसे पा लेंगे।”

**मैथ्यू 21: 22**

“जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे।”

**मार्क 11: 24**

## बॉब डॉयल

आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास वस यह अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज़ पाने की भावनाएँ उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएँ। अपने मनचाहे मकान की शॉपिंग पर जाएँ। अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएँ। इसी समय मनचाही चीज़ का मालिक बनने की भावनाएँ उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े, करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज़ सचमुच पाने में मदद मिलेगी।

जब आप ऐसा महसूस करते हैं, जैसे मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है और यह भावना इतनी सच्ची होती है, जैसे वह आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं। और फिर आप उसे पा लेंगे।

## बॉब डॉयल

हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें। यह सचमुच साकार हो चुकी है। या फिर, आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, “देखिए, मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है।” अगर स्थिति यह है, तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं।

कई बार कर्म करने की ज़रूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएँ महसूस करेंगे। आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा। आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं।

कर्म का मतलब कई लोगों के लिए “काम” हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिलकुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फर्क यह है : प्रेरित कर्म वह है, जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयासरहित होता है और इससे अद्भुत महसूस होता है, क्योंकि आप पाने की फ़ीक्वेन्सी पर होते हैं।

कल्पना करें कि ज़िंदगी तेज़ी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा, जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ़ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ़, ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा, जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं। यह प्रयासरहित महसूस होगा। यह प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा ज़िंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है।

कई बार तो किसी चीज़ को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने

“कर्म” किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलटकर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहाँ तक ले गया, जहाँ आप जाना चाहते थे, और उस चीज़ को आपके पास ले आया, जिसे आप पाना चाहते थे।

## डॉ. जो विटाल

ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब न करें। दोबारा न सोचें। शंका न करें। जब अबसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दें। यह आपका काम है। और आपको बस इतना ही करना है।

अपनी सहज भावनाओं (instincts) पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है, जो आपको प्रेरित कर रहा है। यह ब्रह्मांड का इशारा है, जो पाने की फ़ीक्वेन्सी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है, तो उसका अनुसरण करें। आप पाएँगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको माँगी हुई चीज़ की ओर ले जा रहा है।

## बॉब प्रॉफ्टर

आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है, तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की ज़रूरत है, तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल, आपको इस तरफ़ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज़ की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं, तो आप उन चीजों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। वे चीजें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं। और ऐसा आकर्षण नियम के कारण होता है।

यदि रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं, वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खिंची चली आएँगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएँगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से, बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी।

आपको सिर्फ़ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ खोजी और बनाई गई है, वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी और वह चीज़ अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई।

## जैक कैनफील्ड

इस तरह सोचें कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेलाइट्स की रोशनी सिर्फ़ सौ से दो सौ फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अँधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले दो सौ फुट तक ही देखना होता है। ज़िंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सकें कि उसके बाद अगले दो सौ फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले दो सौ फुट, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी प्रकट होती रहेगी और यह अंततः आपको मनचाही चीज़ की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं।

ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फ़िल्म के पर्दे पर कैसे

उतार पाऊँगी। मैंने बस भविष्य-दृष्टि का परिणाम देखा, मैंने अपने भस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा, मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह हर चीज़ हमारे पास आ गई।

“आस्था से पहला कदम उठाएँ। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। बस पहला कदम उठा लें।”

डॉ. मार्टिन लूथर किंग, ज्यादा (1929-1968)

## रहस्य और आपका शरीर

आइए, अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं, जो यह महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं।

पहली बात तो यह जान लें कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए “वजन कम करने” के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है। चूंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं।

दूसरी बात यह जानना है कि ज्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में, अगर किसी का वजन ज्यादा है, तो यह “मोटे विचार” सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो। “दुबले विचार” सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी।

भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थॉयराइड ग्रथि धीमी गति से

काम करती है, उनका चयापचय (metabolism) धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें “मोटे विचार” सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यक़ीन करते हैं, तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे।

दो बेटियाँ होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था, जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने “मोटे विचारों” का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच “मुटिया” गई और मैंने अपने “मोटापे” की तरफ जितना ज्यादा ध्यान दिया, उतने ही ज्यादा “मोटापे” को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पौंड हो गया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे मन में “मोटे विचार” थे।

आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है, तो ऐसा आपके विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। यदि रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम हैं। आदर्श विचार सोचेंगे, तो वजन भी आदर्श होगा।

सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता, जब तक आप यह न सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है।

आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है, जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है, जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं।

इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते

होंगे, जो धोड़े की तरह दूँस-दूँसकर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा, “मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वज़न हमेशा आदर्श रहता है।” और ब्रह्मांड का जिन्न कहता है, “आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है।”

रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वज़न और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें :

## कदम 1 : माँगें

उस वज़न के बारे में स्पष्टता से सोचें, जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाझ में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वज़न होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वज़न की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें न हों, तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीरें अक्सर देखें।

## कदम 2 : अक्रीन करें

आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा, जैसे आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वज़न पाते हुए देखना होगा।

अपना मनचाहा वज़न लिखकर अपनी वज़न तौलने की मशीन के रीडआउट पर रख दें या खुद का वज़न ही न लें। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो माँगा है, उस बात को न करें। अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वज़न को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटेलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप कैटेलॉग में देखते हैं, आदर्श वज़न चुनते

हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ बज़न आप तक पहुँचा दिया जाता है।

अपने आदर्श वज़न वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही भन उनकी तारीफ़ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं - तो आप उस आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज्यादा वज़न वाले लोग नज़र आएँ, तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएँ और उसे महसूस करें।

## कदम 3 : पाएँ

आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो फिर आप आदर्श वज़न को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियाँ खोजते रहेंगे, तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएँगे। सच तो यह है कि इससे आप ज्यादा वज़न को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम-रोम की तारीफ़ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपने आदर्श वज़न की फ़ीक्वेन्सी पर हैं और आदर्श वज़न का आह्वान कर रहे हैं।

वैलेस वेटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की

अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुँह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमाकर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है, तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और ज्याक्रेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग ग़ायब हो जाता है। मुझे यक़ीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वज़न मिल जाता है।

वज़न की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वज़न 116 पौंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें।

## इसमें कितना समय लगता है?

 **डॉ. जो विटाल**

लोग एक और सवाल पूछते हैं, “उस कार, व्यक्ति, ऐसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा?” मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है, जिसमें लिखा हो कि इसमें तीस मिनट या तीन दिन या तीस दिन लगेंगे। यह तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है।

समय एक ग्रम है। आइंस्टीन ने हमें यह बात बताई है। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो, तो शब्द आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिकशास्त्री और आइंस्टीन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सकें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सकें, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं, वह

पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय हो रही है, तो आप जो चीज़ चाहते हैं, उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है!

ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जो भी देर होती है, आपकी तरफ से होती है। आप यक़ीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुँचते हैं, जहाँ आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज़ की फ़ीक्वेन्सी तक पहुँचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ़ीक्वेन्सी पर पहुँच जाते हैं, तो आपकी मनचाही चीज़ प्रकट हो जाती है।

## बॉब डॉयल

आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज़ को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं होता है।

ब्रह्मांड हर चीज बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती है। यह प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है।

सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं, “यह बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा।” और “यह छोटी चीज़ है। इसके लिए एक घंटे का समय कफ़ी है।” ये हमारे नियम हैं, जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज़ इसी समय पाने की भावनाएँ ले आएँ; ब्रह्मांड फ़ौरन प्रतिक्रिया करेगा – चाहे वह चीज़ जो भी हो।

ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। एक डॉलर को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है, जितना कि दस लाख डॉलर को। प्रक्रिया बही है। एक चीज़ ज्यादा ज़ल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है, इसका इकलौता कारण आपकी यह सूची थी

कि दस लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है और एक डॉलर बहुत छोटी राशि है।

## बॉब डॉयल

कुछ लोगों को छोटी चीजों में ज्यादा आसानी होती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं, छोटी चीजों से शुरू करें, जैसे एक कप कॉफी से। आज एक कप कॉफी आकर्षित करने की भावना रखें।

## बॉब प्रॉक्टर

किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें, जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा, वह दोस्त आपको फोन करेगा या आपको उसकी चिट्ठी मिलेगी।

किसी छोटी चीज से शुरू करना अपनी आँखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ, जिसने ठीक यही किया था। उसने द सीक्रेट फ़िल्म देखी और किसी छोटी चीज से शुरू करने का फ़ैसला किया।


उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की, ताकि उस पंख के दिखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुँचा है।

दो दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊँची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूँ ही नीचे देखा। वहाँ उसके क्रदर्भों के पास वह पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊँची इमारत के गेट पर पंख! वह भी कोइ ऐसा-वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख, जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस

पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज्यादा बड़ी चीज़ों पाने की ओर बढ़ गया है।

## डेविड स्कर्मर

निवेश प्रशिक्षक, उपदेशक और धन विशेषज्ञ



लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ और 95 प्रतिशत मौकों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। पाँच प्रतिशत मौकों पर मुझे एक-दो मिनट इंतजार करना होता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती है तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है।

अब आप समझ सकते हैं कि “मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है” कहने वाले व्यक्ति को हर बार पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। या “मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मैं हर समय जीतता हूँ,” कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है, हमेशा। ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान् चीजों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे।

## अपने दिन की योजना पहले से बनाएँ

आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी, जो आप आज करने वाले हैं। प्रैटिस मलफ़ोर्ड ऐसे शिक्षक हैं, जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

“जब आप खुद से कहते हैं, ‘मेरी यात्रा सुखद होगी,’ तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं, जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे, ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं, जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार, या दूसरे शब्दों में, हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को ‘उत्पन्न करने’ का काम करती है।”

**प्रैटिस मलफ़ोर्ड**

प्रैटिस मलफ़ोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी! आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन, हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड्डबड़ी है।

अगर आप जल्दबाजी और हड्डबड़ी में हैं, तो जान लें कि ये विचार और कार्य डर (देर होने के डर) पर आधारित हैं और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीजें “उत्पन्न” कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं, तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ “उत्पन्न” कर देगा, जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड्डबड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहरकर उस फ़ीक्वेन्सी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं, तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल लें।

कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, “समय” के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल-गोल घूम रहे हैं, तो भविष्य में ढूँढ़ा से घोषणा करें, “मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है।” इस तरह आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे।

आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें, तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनवाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाएँ। आप यह काम हर जगह, हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें।

जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे।

## रहस्य संहेय

- अलादीन के जिन्न की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है।
- रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है! इसके तीन आसान क्रदम हैं : माँगें, यकीन करें, और पाएँ।
- ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ माँगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है, तो आपने माँग लिया है।
- यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है, जैसे आपको माँगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेन्सी भेजते हैं, तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है।
- पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है, जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेन्सी पर पहुँच जाते हैं।
- वज्ञन कम करने के लिए “वज्ञन कम करने” पर ध्यान केंद्रित न करें। इसके बजाय, अपने आदर्श वज्ञन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वज्ञन की भावनाएँ महसूस करेंगे, तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे।
- ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए एक डॉलर प्रकट करना भी उतना ही आसान है, जितना कि दस लाख डॉलर।
- आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीक़ा यह है कि एक कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे, तो आप ज्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे।
- हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से, अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे।

# सत्यकृत प्रक्रियाएँ



## डॉ. जो विटाल

बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में क्रैद, बंद या फँसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हक्कीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो आपकी वर्तमान हक्कीकत बदलने लगेगी।

आपकी वर्तमान हक्कीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है, जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे, तो आपकी हक्कीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी।

“इंसान खुद को बदल सकता है... और अपनी तक़दीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है, जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जाग्रत है।”

क्रिस्टिचरन डी. लार्सन (1866-1954)

## लीसा निकोल्स

अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं, तो क्या होता है - उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की वहशत में रहते हैं! आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज़ के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज़ की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज़ ही मिलता है, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं : क्या कर्ज़ वहाँ पर होगा ? हाँ, कर्ज़ वहाँ पर है। क्या कर्ज़ आने वाला है ? हाँ, कर्ज़ आने वाला है। क्यों ? क्योंकि आप कर्ज़ के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए समझे आ गया, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें - बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें!

उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है, क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, “इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है।” उन चीज़ों की उम्मीद करें, जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद न करें, जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं?

## जेम्स रे

ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, “यह मैं हूँ।” यह आप नहीं हैं। यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं या आपके संबंध वैसे नहीं हैं, जैसे आप चाहते हैं या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं हैं। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है; यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम

लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यह शाप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी।

“हम जो भी हैं, अपने पुराने विचारों के कारण हैं।”

**बुद्धि** (563 ई.पू.-483 ई.पू.)

मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा, जो महान शिक्षक नेविल गोदार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था, “द प्रूनिंग शियर्स ऑफ रिवीज़न।” इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था, तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएँ, जिससे आप रोमांचित हो जाएँ। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं, तो आप उस दिन की अपनी फ़ीक्वेन्सी को साफ़ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ़ीक्वेन्सी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज्यादा देर नहीं होती है।

## कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया

### डॉ. जो विटाल

आप इसी समय अपनी जिंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीजों की सूची बनाएँ, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं, जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं।

“कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है, तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएँगे कि यह सच है।”

वैलेस कैट्लन्स (1860-1911)

### मार्सी शिमोफ़

कृतज्ञता जिंदगी में ज्यादा अच्छी चीजें लाने का अचूक उपाय है।

### डॉ. जॉन ग्रे

मनोवैज्ञानिक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता

हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्ती उसके छोटे-छोटे कामों की तारीफ़ करती है, तो वह क्या करना चाहता है? वह और ज्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है। यह प्रोत्साहित करती है। यह सहयोग को आकर्षित करती है।

### डॉ. जॉन डेमार्टिनी

हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं, उसे उत्पन्न कर देते हैं।

### जेम्स रे

कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत जबर्दस्त साबित हुआ है। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ, “धन्यवाद।” हर सुबह, जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं, तो मैं कहता हूँ, “धन्यवाद।” फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निबटाते समय में उन चीजों को याद करता रहता हूँ, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में मैं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम नहीं निबटा रहा हूँ। मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएँ महसूस कर रहा हूँ।

जिस दिन हमने जेम्स रे के कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फ़िल्माया, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। अगले ही दिन से मैं भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती हूँ, जब तक कि नए दिन और अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की भावनाएँ महसूस न कर लूँ। फिर जब मैं पलांग से उत्तरती हूँ, तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ, “धन्यवाद,” और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ, “धन्यवाद।” बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ, “धन्यवाद।” नहाते और तैयार होते समय भी मैं “धन्यवाद” कहता

और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती है। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार “धन्यवाद” कह लेती हूँ।

यह काम करके मैं अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेन्सी तय कर रही हूँ और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की धोषणा कर रही हूँ, जिस पर मैं अपने दिन को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं पलंग से लड्डखड़ाते हुए उतसु और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दूँ। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माण हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें।

कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस पुस्तक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, उसे वैलेस वेटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं।

जो शुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फ़िल्म देखने के बाद मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वे सारी चीज़े मिली हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। शुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की है, उसमें वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों में भी। पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा “धन्यवाद” कहते और महसूस करते हैं। शुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है। इसीलिए कृतज्ञता उनकी जीवनशैली बन चुकी है।

मैंने जितना भी पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है, उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप

रहस्य के ज्ञान से सिफ़र एक ही काम करना चाहते हों, तो कृतज्ञता का प्रयोग करें, जब तक कि यह आपकी जीवनशैली न बन जाए।

## डॉ. जो विटाल

आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं, तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी ओर चीज़ें आ जाएँगी, जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, “देखिए, मेरे पास वैसी कार नहीं है, जैसी मैं चाहता हूँ। मेरे पास वैसा भकान नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ। मेरे पास वैसा जीवनसाथी नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ। मेरे पास वैसी सेहत नहीं है, जैसी मैं चाहता हूँ।” ओह! रहने दें! रहने दें! ये वे सारी चीजें हैं, जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है, आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हों, जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है, आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हों। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है।

“अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण ग़रीब बने रहते हैं।”

## वैलेस वेटल्स

अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आपके पास ज्यादा चीजें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएँ और विचार प्रेषित करते हैं, वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या “पर्याप्त नहीं” की भावनाएँ आपको वह नहीं दिला सकतीं, जो आप चाहते हैं। वे आपको सिफ़र वही चीजें ज्यादा दिला सकतीं।

हैं, जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनवाही चीज़ों को आप तक पहुँचने से रोक रहे हैं। अंगर आप नई कार चाहते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप इसी प्रबल फ़्रीक्वेन्सी को बाहर भेज रहे हैं।


आपके पास इस समय जो है, उसके लिए कृतज्ञ बनें। जब आप अपनी जिंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएँगे, जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज्यादा नियामतों की याद दिलाएँगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ़्रीक्वेन्सी पर पहुँच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ों मिल जाएँगी।

“कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है, जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी।”

### वैलेस कैल्ज़ा

#### ली ब्रोअर

वेल्थ ट्रेनर और विशेषज्ञ, लेखक तथा शिक्षक



मैं सोचता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है, जब वह कहता है, “परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं,” या “स्थितियाँ बिगड़ रही हैं।” एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थीं, तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, “जब भी मैं इस पत्थर को छुकँगा, तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज़ को याद करूँगा, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।” हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी

जेब में रख लेता हूँ और उन चीज़ों को याद करता हूँ, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ? अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है।

मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ़्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, “यह क्या है?” मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। दो सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ़्रीका से उसका ईमेल आया, “मेरा बेटा मौत की कगार पर है। उसे हैपेटाइटिस हो गया है। क्या आप मुझे तीन कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं?” मैंने कहा, “बिलकुल।” सङ्क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे। चूँकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए।

चार-पाँच महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला, “मेरे बेटे की हालत सुधर रही है। अब वह बहुत अच्छा है।” फिर उसने आगे बताया, “लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। इस दस डॉलर के हिसाब से एक हज़ार कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।”

“कृतज्ञता का नज़रिया” रखना बहुत महत्वपूर्ण है।

महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमज़ोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं, जितना उन्होंने किया। आइंस्टीन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार “धन्यवाद” देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए।

रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बर्दस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी, उसे याद करें: माँगें। आप जो भी चीज़ चाहते हैं, उसे लिखकर शुरुआत करें। “हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि...” (और फिर बाकी का वाक्य पूरा करें)।

जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं, जैसे आपको मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएँ महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी हो।

जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ज्ञान पहुँचाने का सपना देखा, उसी पल से मैं द सीक्रेट फ़िल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएँगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएँ महसूस कीं। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई, तो बाँध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी, दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं, जो हर पल कृतज्ञता से घिरकती है। यह हमारी जीवनशैली बन चुकी है।

## मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया

मानसिक तस्वीर देखना (visualisation) एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने दै मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए चौबीस साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। (इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी।)

मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है, तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जाग्रत होते हैं, जैसे वे चीज़ें इसी समय आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल धनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ़ीक्वेन्सी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुँचा देगा, जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था।

### डॉ. डेनिस वेटली

 मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ऑलॉपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विज़ुअल मोटर रिहर्सल रखा।

जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं, तो आप उस चीज़ को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा

रही है : हमने ऑलंपिक एथलीट्स से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायोफीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियाँ उसी क्रम में इस्तेमाल हुईं, जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फ़र्क नहीं कर सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है, तो वह आपके शरीर में भी होगी।

आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज। जॉर्ज ईस्टमैन और फ़िल्म। थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीक़ा यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आईं।

ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड का लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं।

हो सकता है आप यह सोचें, “मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है।” हो सकता है आप यह सोचें, “वे इन चीजों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर सकता।” कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आग बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है, बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा है।

## माइक डूली

 मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें, तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें।

एक उदाहरण देखें। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें, अभी। अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें : अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अँगूठियाँ, नाखून। इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आँखें बद करने से पहले अपने हाथों और उँगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टिररिंग व्हील पर देखें।

## डॉ. जो विटाल

 यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है, जैसे यह आपके पास पहले से ही है।

डॉ. विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं, जहाँ आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुँचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आँखें खोलने पर झटका लगे, तब जान लें कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वह अवस्था, वह जगह वास्तविक है। यहीं वह क्षेत्र है, जहाँ हर चीज़ की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुँच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं, तो आपको वह मिल भी जाएगी।

## जैक कैनफील्ड

 सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं, बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं, “अगर मैं सकारात्मक

विचार सोचने लागूं या अपनी मनवाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं, तो यही काफ़ी है।” लेकिन अगर इसके साथ आप समुद्रि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं, तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी।

## बॉब डॉयल

आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। “काश वह कार मुझे मिल जाए” या “किसी दिन मेरे पास वह कार होगी” की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है। आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे, तो आपकी मनवाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी, जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी।

“यह शक्ति क्या है, यह मैं नहीं बता सकता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है।”

**अलेक्झॉर्डर व्हाइम केल (1847-1922)**

## जैक कैनफील्ड

हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है। क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा।

## माइक डूली

“कैसे” ब्रह्मांड का अधिकार-क्षेत्र है। यह आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके को हमेशा जानता है।

## डॉ. जो विटाल

अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएँगे। यही वह जगह है, जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं।

रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जाग्रत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप खुद को यह यक़ीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा “कैसे” होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएँ उस चीज को साकार स्पष्ट में देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है, जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है।

## डॉ. जो विटाल

आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगाना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए।

हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए, मैं एक किंचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किंचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किंचन के बारे में ज़रा भी न

सीरों। अपने किचन, इसके कबड्डि, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग-रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दें...

आपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी, है ना? आपने अभी-अभी मानसिक तस्वीर देख ली है!

“हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या न हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है।”

**ज्ञेयीक ब्लेंचेंड** (1881-1960)

यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है, जो डॉ. जॉन डेमार्टिनी अपने ब्रेकफ़्शु एक्सपीरिएन्स सेमिनारों में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं, तो उसे क्रायम रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएँ और उसमें बहुत सी गतिविधियाँ भर लें।

उदाहरण के लिए, दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाजा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएँ। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ से आप फ्रिज का दरवाजा बंद करती हैं। अब जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है, तो इसे देखना और क्रायम रखना ज्यादा आसान है, है ना?

“हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियाँ और संभावनाएँ हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है।”

**ज्ञेयीक ब्लेंचेंड**

## सशक्त प्रक्रियाएँ सक्रिय हो जाती हैं

**मार्सी शिमाँफ़**

जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं, उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीज़ों को आदतन आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है, और वे चाहे जहाँ भी जाएँ, उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वे इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। यह सिर्फ़ एक बार की घटना नहीं है, वे हर ब्रह्मत इसका इस्तेमाल करते हैं।

यहाँ पर दो सच्ची कहानियाँ दी जा रही हैं, जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती हैं।

पहली कहानी जीनी नाम की महिला के बारे में है, जिसने द सीक्रेट का डीवीडी खरीदा। वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी, ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुँच जाए। वह ख़ास तौर पर बॉब प्रॉक्टर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा।

एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि

डाकिए ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके घर पहुँचा दी थी। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ़ चार ब्लॉक दूर रहते थे! यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था, जो बॉब का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुँचाने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं, जब दरवाजा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा? बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जीनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया।

दूसरी कहानी कॉलिन नाम के दस वर्षीय लड़के की है, जिसे द सीक्रेट फ़िल्म बड़ी पसंद आई थी। कॉलिन का परिवार डिज़नी वर्ल्ड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया और पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, “कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूँगा और लाइन में इंतजार नहीं करना चाहूँगा।”

अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उसका परिवार एपकॉट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज़नी के स्टाफ़ के एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा कि वे एपकॉट के उस दिन के प्रथम परिवार थे। प्रथम परिवार के रूप में उन्हें बीआईपी स्टेट्स दिया गया, स्टाफ़ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एपकॉट के हर बड़े झूले का मुफ्त टिकट दिया गया। कॉलिन ने जो चाहा था, वह हो गया, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हो गया।

सैकड़ों परिवार उस सुबह एपकॉट सेंटर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को ज़रा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम

परिवार के रूप में क्यों चुना गया। वह जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था।

कल्पना कीजिए, दस साल की उम्र में ही उसे यह पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है!

“कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था - यानी आप।”

## ज्ञेयवीक्षण ब्रेंडिंग

### जेम्स रे

लोग इसे कुछ समय तक क़ायम रखते हैं और वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, “मैं प्रेरित हो चुका हूँ। मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ।” लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते हैं। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ़ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, “यह काम नहीं करता है।” आप जानते हैं, फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, “आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है,” और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं।

अगर आप अपने मर्सिताज्ज्ञ में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं, तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएँ खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए, उसी पल उसे फ़ौरन बाहर निकाल दें। उस विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह यह सोचें, “मैं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है।” और इसे महसूस करें।

## जॉन असाराफ़

आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विज्ञ बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवनसाथी, उस मनवाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विज्ञ बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुँच गया, जैसे वे चीज़ें मुझे मिल चुकी हों।

फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा क्रन्तीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और पाँच साल में तीन शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुँच गया, जहाँ मैंने एक मकान खरीदा। एक साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर पाँच साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर पाँच साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, “बक्से में क्या है, डैडी?” मैंने कहा, “इसमें मेरे विज्ञ बोर्ड हैं।” उसने पूछा, “विज्ञ बोर्ड क्या होता है?” मैंने कहा, “देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ, उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ।” ज़ाहिर है, साढ़े पाँच साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, “बेटा, आओ मैं तुम्हें विज्ञ बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा।”

मैंने बक्सा खोला। एक विज्ञ बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसकी मैं पाँच साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस बक्तु उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था - मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा, क्योंकि मैं हतप्रभ

रह गया था। कीनन ने पूछा, “आप रो क्यों रहे हैं?” “क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ, जो मैंने यढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियाँ बनाई हैं। यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला।”

“कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्वदर्शन है।”

**जॉनेवीव बेहरेंड (1881-1960)**

विज्ञ बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विज्ञ बोर्ड को ऐसी जगह रखें, जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असाराफ़ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएँ महसूस करें। जब आप पा लें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विज्ञ बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता-पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी।

“द सीक्रेट” वेबसाइट फ़ोरम के एक व्यक्ति ने अपने विज्ञ बोर्ड पर “द सीक्रेट” डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फ़िल्म देखी थी, लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसके विज्ञ बोर्ड बनाने के दो दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं “द सीक्रेट” फ़ोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले दस लोगों को मुफ़्त डीवीडी इनाम में दूँ। वह दस लोगों में से एक था! अपने विज्ञ बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के दो दिन के

भीतर ही उसे “द सीक्रेट” का डीवीडी मिल गया। चाहे यह “द सीक्रेट” का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है!

मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थीं। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार-बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती रहीं, जब तक कि उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के बाद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत रोमांचित थीं, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे पहले से ही जानती थीं कि वह मकान उनका था। वे चैंपियन थीं!

## जैक कैनफ्रील्ड

फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि वह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आँखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं, वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएँ महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें, जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें। और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है।

## ) रहस्य संहाय

- उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें, जिन्हें आप चाहते हैं; उन चीज़ों की उम्मीद न करें, जिन्हें आप नहीं चाहते हैं।
- कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं, उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे।
- अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं।
- मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं, तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएँ उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है, जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था।
- आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिफ़र एक बार की घटना न बनाएँ, बल्कि इसकी आदत डाल लें।
- हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे, तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें, जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे।

# छन्द का रहस्य

“मस्तिष्क जिस चीज़ की ... कल्पना कर सकता है,  
उसे यह हासिल भी कर सकता है।”

डब्ल्यू. क्लीमेंट स्टोन (1902-2002)



## जैक कैनफील्ड

रहस्य ने सचमुच मेरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि मेरे पिता की मानसिकता बहुत नकारात्मक थी। वे सोचते थे कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हर दौलतमद व्यक्ति धोखा देकर ही अमीर बना होगा। इसलिए बचपन से ही ऐसे के बारे में मेरे दिमाग में बहुत गलत धारणाएँ थीं, जैसे यह कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप बुरे हैं, क्योंकि सिर्फ बुरे लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। मेरे पिता का एक प्रिय वाक्य था, “तुम्हें क्या लगता है, मैं रॉकफेलर हूँ?” बड़े होते समय मुझे यक़ीन था कि ज़िंदगी मुश्किल है। बहरहाल, जब मैं डब्ल्यू. क्लीमेंट स्टोन से मिला, तब कहीं जाकर मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया।

जब मैं स्टोन के साथ काम कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा, “मैं

चाहता हूँ कि तुम एक लक्ष्य तय करो, जो इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करने पर तुम्हारा दिमाग धूम जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका सिखाया है।” उस समय मेरी सलाना आमदनी लगभग आठ हजार डॉलर थी, इसलिए मैंने कहा, “मैं एक साल में एक लाख डॉलर कमाना चाहता हूँ।” देखिए, मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कोई रणनीति, कोई संभावना नहीं दिख रही थी। मैंने तो बस यूँ ही कह दिया, “मैं इसकी धोषणा कर रहा हूँ, मैं इस पर यकीन कर रहा हूँ, मैं इसे सच मानकर काम करने जा रहा हूँ और मैं इसे ब्रॉडबैंड में भेजने जा रहा हूँ।” तो मैंने यह कर दिया।

उन्होंने मुझे एक चीज यह सिखाई कि मैं हर दिन अपनी आँखें बंद करके अपने लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखूँ, जैसे वह लक्ष्य हासिल हो चुका हो। तो मैंने एक लाख डॉलर का नोट बनाकर अपने पलंग के ऊपर की दीवार पर चिपका लिया। सुबह उठकर जब मैं ऊपर देखता था, तो मुझे वहाँ पर नोट दिख जाता था और मुझे याद आ जाता था कि यह मेरा लक्ष्य है। फिर मैं आँखें बंद कर लेता था और एक लाख डॉलर सलाना आमदनी वाली जीवनशैली की मानसिक तस्वीर देखने लगता था। रोचक बात यह है कि एक महीने तक कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। मेरे मन में कोई भी चमत्कारी विचार नहीं आया। किसी ने भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं दिए।

एक महीने बाद मेरे मन में एक लाख डॉलर का विचार आया। यह अचानक ही मेरे दिमाग में आया था। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई। मैंने सोचा, “अगर मैं अपनी पुस्तक की चार लाख प्रतियाँ बेच सकूँ और हर प्रति पर मुझे चौथाई डॉलर का लाभ हो, तो मुझे एक लाख डॉलर मिल जाएँगे।” देखने वाली बात यह है कि पुस्तक पहले से ही तैयार थी, लेकिन मेरे मन में पहले कभी यह विचार नहीं आया था। (एक रहस्य यह भी है कि जब आपके मन में प्रेरित विचार आए, तो आपको उस पर भरोसा करना होगा और काम करना होगा।) मैं नहीं जानता था कि चार लाख प्रतियाँ कैसे बिकेंगी।

फिर मैंने सुपरमार्केट में नेशनल इनक्वायरर देखा। मैं इसे लाखों बार देख चुका था, क्योंकि यह वहाँ पृष्ठभूमि में लगा रहता था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैंने सोचा, अगर पाठकों को मेरी पुस्तक के बारे में पता चल जाए, तो यकीनन चार लाख लोग इसे ख़रीद लेंगे।

लक्ष्य बनाने के लगभग ढेर महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क के हंटर कॉलेज में छह सौ शिक्षकों के सामने भाषण दिया। भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आकर बोली, “आपका भाषण बहुत अच्छा था। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। यह रहा मेरा कार्ड।” मुझे बाद में पता चला कि वह महिला फ़ीलास पत्रकार थी और नेशनल इनक्वायरर में लेख लिखती थी। “द ट्राइलाइट जोन” की विषयवस्तु मेरे दिमाग में गूँजने लगी, जैसे, ओह, यह चीज सचमुच काम कर रही है। वह लेख छप गया और पुस्तक की बिक्री बढ़ने लगी।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में इन सभी घटनाओं को आकर्षित कर रहा था, जिनमें वह पत्रकार भी शामिल थी। लंबी कहानी को संक्षेप में कहा जाए, तो मुझे उस साल एक लाख डॉलर की कमाई नहीं हो पाई। हमारी कमाई 92,327 डॉलर थी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि हम हताश हो गए और यह कहने लगे, “यह कारगर नहीं है?” नहीं, इसके बजाय हम तो यह कह रहे थे, “यह अद्भुत है!” मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, “अगर यह तरीका एक लाख के लिए काम करता है, तो क्या यह दस लाख के लिए भी काम करेगा?” मैंने कहा, “मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो है। हम कोशिश करके देखते हैं।”

मेरे प्रकाशक ने चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक के लिए जब मुझे रोयलटी का चेक काटा, तो उन्होंने अपने दस्तखत में एक स्माइली बना दी, क्योंकि वे पहली बार किसी को दस लाख डॉलर का चेक दे रहे थे।

मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसकी जाँच कर चुका हूँ। क्या यह रहस्य सचमुच काम करता है? बिलकुल करता है। इसने पूरी

तरह काम किया और उस दिन के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद ले रहा हूँ।

रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज़ पर लागू की जा सकती है, जिसे आप पाना चाहते हैं। इसमें पैसा भी शामिल है।

पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज्यादा पैसे पाना असंभव है, अगर आपका ध्यान इस तरफ हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिनांग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देंगे, जिनमें आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

आपको अपने विचारों से एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और यह यक़ीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसा करना बहुत मजेदार होता है! आप ध्यान देंगे कि जब आप दौलतमंद होने का नाटक करेंगे और खेल खेलेंगे, तो आप तत्काल पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। और जब आप पैसे के बारे में ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा।

जैक की अद्भुत कहानी से प्रेरित होकर द सीक्रेट टीम ने एक कोरा चेक बनाया, जो द सीक्रेट वेबसाइट [www.thesecret.tv](http://www.thesecret.tv) पर मुफ़्त में डाउनलोड किया जा सकता है। यह कोरा चेक आपके लिए है और इसका भुगतान ब्रह्मांड का बैंक करेगा। आप इसमें अपना नाम, रकम, विवरण भरकर ऐसी जगह रखें, जहाँ आप इसे हर दिन देख सकें। चेक की तरफ देखते समय

यह भावना महसूस करें, जैसे वह पैसा आपके पास इसी समय मौजूद है। उस पैसे को ख़र्च करने की कल्पना करें। उन सारी चीज़ों को ख़रीदने की कल्पना करें, जिन्हें आप ख़रीदना चाहते हैं। वे सारे काम करने की कल्पना करें, जो आप करना चाहते हैं। महसूस करें कि यह कितना अद्भुत है! जान लें कि वह पैसा आपका हो चुका है, क्योंकि जब आप माँगते हैं, तो मिल जाता है। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि द सीक्रेट चेक का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी रकम हासिल की है। यह एक मजेदार और कारगर खेल है।

## प्रचुरता को आकर्षित करें

किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है, उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आप ऐसा अपने विचारों द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन-की-कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त-से-ज्यादा-धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे, तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा।

पैसे की ज़रूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है। इसलिए ज़ाहिर है, आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे।


मैं पैसे के बारे में अपने अनुभव से बोल सकती हूँ, क्योंकि रहस्य पता चलने से ठीक पहले मेरे अकाउंटेंट्स ने मुझे बताया कि मेरी कंपनी को उस साल

भारी नुकसान हुआ है और तीन महीनों में यह इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी। दस साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी कंपनी मेरी उँगलियों से फिसलने वाली थी। जब मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए ज्यादा पैसों की ज़रूरत महसूस की, तो परिस्थितियाँ और बिगड़ती गईं। बाहर निकलने का कोई तरीक़ा नहीं दिख रहा था।

फिर मैंने रहस्य खोज लिया और मेरे जीवन की हर चीज़ - जिसमें मेरी कंपनी की स्थिति भी शामिल थी - पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने का तरीक़ा बदल लिया। मेरे अकाउंटेंट ऑफिसों के बारे में चिंता करते रहे और उन पर ध्यान केंद्रित करते रहे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को प्रचुरता पर केंद्रित रखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा है। मैं अपने अस्तित्व के रोम-रोम से जानती थी कि ब्रह्मांड मुझे देगा और इसने दिया। इसने ऐसे तरीकों से दिया, जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे मन में शंका के पल आते थे, लेकिन शंका होते ही मैं तत्काल अपने विचारों को अपने मनचाहे परिणाम पर केंद्रित कर लेती थी। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया, इसकी खुशी महसूस की और यकीन किया!

मैं रहस्य के बारे आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आप ज़िंदगी में जो भी चीज़ चाहते हैं, उसे पाने का शॉर्टकट इसी समय खुश होना और खुशी महसूस करना है! मनचाहे पैसे या मनचाही चीज़ को ज़िंदगी में लाने का यह सबसे तेज़ तरीका है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करेंगे, जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती हैं। इसमें न सिर्फ़ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी हर मनचाही चीज़ शामिल है। आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने का संकेत भेजना होगा। जब आप खुशी की भावनाएँ भेजेंगे, तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भेज देगा। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है।

## समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें



डॉ. जो विटाल

मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे : “मैं अपने जीवन में ज्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ ? मैं ज्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ ? मैं ज्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ ? हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रोडिंग कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ और इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है, क्योंकि यह तन्त्रज्ञान के रूप में ही मेरे पास आ सकती है ? मैं और ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ ?” इसका इरादा रखें।

हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका काम यह घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीजों में से एक है, तो यह बताएँ कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। “मैं अगले तीस दिनों में अप्रत्याशित रूप से पच्चीस हजार डॉलर (या कोई और धनराशि) पाना चाहूँगा।” बस यह आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए।

अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ़ तन्त्रज्ञान के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फ़ौरन बाहर निकाल दें। क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा ? इस तरह के विचारों से आपका भला नहीं होगा।

अब आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास “कैसे” आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप माँगें, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं

और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुँचाएगा।

## बॉब प्रॉक्टर

ज्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है। लेकिन इससे वे हमेशा कर्ज में फँसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, “लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ।” इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें।

मान लीजिए, आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है, जिनके बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे। लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा, जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा, ताकि आपका भला हो सके।

## जेम्स रे

लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, “मैं अपनी आमदनी अगले साल दोगुनी करना चाहूँगा।” लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, जिनसे आमदनी दोगुनी हो। वे हमेशा कहते रहते हैं, “मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता।” अंदाज़ा लगाएँ, इसका परिणाम क्या होगा? “आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है।”

“मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता” जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुज़रे हों, तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें, “मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ! मैं इसे ख़रीद सकता हूँ!” इन वाक्यों को बार-बार कहें। तोते की तरह दोहराएँ। यह ठान लें कि अगले तीस दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ़ देखकर खुद से कहेंगे, “मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। मैं इसे ख़रीद सकता हूँ।” जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुज़रते देखें, तो कहें, “मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ।” जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें, तो कहें, “मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ।” ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं और जब आप ऐसा कर लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएँगी।

## लीसा निकोल्स

अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपके पास नहीं हैं, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभावों पर अफ़सोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं - “हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते” - तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएँगे, क्योंकि आप अभाव को ज्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें।

“आत्मिक ख़जाना, जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है, कभी ख़ाली नहीं होता है। यह हर समय

आपके पास है और आपकी आस्था तथा माँगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है।”

## चार्ल्स फिल्मोर (1854-1948)

अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे, तो जान जाएँगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित हैं और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है - याहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुँचा दी।

जो दौलत उसके पास है, वह आपके पास भी है। उसमें और आपमें फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचें।

## डेविड स्कर्मर

रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा, “मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ?” आकर्षण का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपको मिलेगी, इसलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और इसके टोटल पर व्हाइटनर लगाकर वहाँ एक नया टोटल लिख दिया। मैंने वह रकम लिख दी, जो मैं अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा, “अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखूँ, तो क्या होगा?” यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। एक महीने के भीतर ही स्थितियाँ बदलने लगीं। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। ज़ाहिर है, कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज्यादा मिलते हैं।

द सीक्रेट फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियाँ मिली हैं, जिन्होंने बताया है कि फ़िल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। और ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया, तो उन्होंने चेकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलती थी। मैं यह नाटक करती थी कि बिल दरअसल चेक हैं। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी, “और पैसा आ गया! धन्यवाद। धन्यवाद!” मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करती थी कि वह चेक है और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक और शून्य जोड़ देती थी, ताकि राशि और ज्यादा बढ़ जाए। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उसके पन्ने के सबसे ऊपर लिखती थी, “मुझे मिला” और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख लेती थी, जिनके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया था। हर राशि के आगे मैं लिखती थी “धन्यवाद,” और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावनाएँ महसूस करती थी - जब तक कि मेरी आँखों में आँसू नहीं आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी, जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत छोटा दिखता था और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी।

मैं अपने बिल तब तक कभी नहीं खोलती थी, जब तक कि अपने भीतर यह भावना नहीं भर लेती थी कि वे चेक हैं। वे बिल नहीं चेक हैं, अगर मैं खुद को यह यकीन दिलाए बिना उन्हें ग़लती से खोल लेती थी, तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावना को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएँ रखनी होंगी, ताकि मेरे पास ज्यादा पैसे आ सकें। बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर सावित हुआ और इसने मेरी जिंदगी बदल दी। आप भी इस तरह के खेल इंजाद कर सकते हैं। अंदर के एहसास से आप फ़ौरन जान

जाएँगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब आप नाटक करेंगे, तो परिणाम तेज़ी से मिलेंगे।



## लोरल लेंजमीर

वित्तीय रणनीतिकार, वक्ता और व्यक्तिगत तथा कॉरपोरेट कोच

मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि “पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।” बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह यह विचार रख लिया, “पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है।” अब शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता है, ठीक है? आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा, “तुम झूठे हो, यह मुश्किल है।” आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का ट्रेनिंग मैच कुछ समय तक चलेगा।

अगर आपके मन में ऐसे विचार हों, “पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा,” तो उन्हें फौरन बाहर निकाल दें। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रीक्वेन्सी भेजी थी और इसी कारण आपको ज़िंदगी में बुरे अनुभव मिले। लोरल लेंजमीर की सलाह मानें और उन विचारों की जगह ये विचार रख लें, “पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है।”



## डेविड स्कर्मर

पैसा बनाने के विषय में यह जान लें कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं।



## लोरल लेंजमीर

मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ, उसका 80 प्रतिशत हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती

हूँ, लोग कहते हैं, “ओह, आप ऐसा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता।” बहरहाल, लोगों में धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है।

“अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फ़ैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है।”

**टैल्क वाल्डो इमर्सन** (1803-1882)

ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। ज़ाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन ये नकारात्मक भावनाएँ ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, “मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है।” “धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है।” मैं दौलत का चुंबक हूँ।” “मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है।” “मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है।” “धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।”

## पैसा पाने के लिए पैसा हैं

पैसा देना अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने की ज़बर्दस्त तकनीक है, क्योंकि यह करते समय दरअसल आप कह रहे हैं, “मेरे पास बहुत पैसा है।” हैरानी की कोई बात नहीं है कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर

होते हैं। वे बहुत बड़ी रकम दान देते हैं और इसके बाद आकर्षण के नियम के माध्यम से ब्रह्मांड बदले में उन्हें ढेर सारी दौलत का ख़ज़ाना प्रदान करता है - कई गुना!

अगर आप सोच रहे हैं, "मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं," ओह! अब आप जान गए हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे क्यों नहीं हैं! अगर आप सोचते हैं कि आपके पास दान देने के लिए पर्याप्त त पैसे नहीं हैं, तो देना शुरू कर दें। जब आप दान देने में आस्था दर्शाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपको ज्यादा पैसा देगा, ताकि आप और ज्यादा दान दे सकें।

दान देने और त्याग करने में बड़ा फ़र्क होता है। दान सुखद भावनाओं से भरे दिल से दिया जाता है। त्याग करते समय अच्छा महसूस नहीं होता है। दोनों को समान न समझें - ये बिलकुल विपरीत हैं। एक कमी का संकेत भेजता है; दूसरा पर्याप्त-से-ज्यादा का संकेत भेजता है। एक से अच्छा महसूस होता है; दूसरे से अच्छा महसूस नहीं होता है। त्याग अंततः द्वेष की ओर ले जाएगा। पूरे दिल से दान देना आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे आनंददायक कामों में से एक है और आकर्षण का नियम उस संकेत को पकड़ लेगा तथा आपके जीवन में उसकी बाढ़ ले आएगा। आप फ़र्क खुद महसूस कर सकते हैं।

## जेम्स रे

मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, जो ढेर सारा पैसा तो कमाते हैं, लेकिन लोगों से उनके संबंध बहुत ख़राब होते हैं। यह असली दौलत नहीं है। आप पैसे के पीछे भागकर अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप दौलतमंद बन जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पैसा दौलत का हिस्सा नहीं है। यह बेशक है। लेकिन यह सिर्फ हिस्सा है।

मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी देखता हूँ, जो "आध्यात्मिक" हैं, लेकिन हर समय बीमार और कंगाल रहते हैं। यह भी दौलत नहीं है। जीवन का मतलब प्रचुरता है - सभी क्षेत्रों में।

अगर आपको यह यकीन करना सिखाया गया है कि दौलतमंद बनना आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो मैं आपको कैथरीन पॉन्डर की द मिलियनेर्स ऑफ़ द बाइबल सीरीज़ पढ़ने की सलाह देना चाहूँगी। इन बेहतरीन पुस्तकों से आपको पता चलेगा कि अब्राहम, इसाक, जेकब, जोसेफ़, मोज़ेस और ईसा मसीह न सिर्फ़ समृद्धि के उपदेशक थे, बल्कि स्वयं मिलियनेर थे और इन्हीं शाही जीवनशैली जीते थे, जिसकी कल्पना वर्तमान युग के कई मिलियनेर्स भी नहीं कर सकते।

आप साम्राज्य के वारिस हैं। समृद्धि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और जीवन के हर क्षेत्र में आपके हाथ में इतनी प्रचुरता की कुंजी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप हर मनचाही अच्छी चीज़ के हक़दार हैं और ब्रह्मांड आपको वह चीज़ देगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इसका आह्वान करना होगा। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब आपके पास कुंजी है। कुंजी आपके विचार और भावनाएँ हैं। यह कुंजी ज़िंदगी भर आपके हाथ में रहती है।

## मार्सी शिमोफ़

पश्चात्य संस्कृति में बहुत से लोग सफलता की खोज में जुटे रहते हैं। वे बड़ा मकान चाहते हैं, वे अपने व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, वे तमाम बाहरी चीज़ों चाहते हैं। लेकिन हमने अपनी खोज में यह पाया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन बाहरी चीज़ों के मिलने के बाद वे सचमुच खुश हो जाएँगे, जो उनका लक्ष्य है। हम इन बाहरी चीज़ों का पीछा यह सोचकर करते हैं कि उनके मिलने के बाद हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन मामला उल्टा है। आपको पहले

अंदरूनी खुशी, अंदरूनी शांति, अंदरूनी भविष्य-ट्रैटि की ओर जाना होता है; इसके बाद ही तमाम बाहरी चीजें प्रकट होती हैं।

हर चीज़ जो आप चाहते हैं, अंदर का काम है! बाहरी जगत परिणामों का संसार है। यह आपके विचारों का परिणाम है। अपने विचारों की फ़ीक्वेन्सी को खुशी पर सेट कर लें। अपने मन में खुशी और आनंद की भावनाएँ भर लें और अपनी पूरी शक्ति से उन्हें ब्रह्मांड की ओर भेजें। ऐसा करने पर आपको यह धरती स्वर्ग जितनी सुंदर लगने लगेगी।

## रहस्य संक्षेप

- दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा आना असंभव है।
- अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है, जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे, तो आपके जीवन में ज्यादा पैसा प्रवाहित होगा।
- इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज़ तरीका है।
- यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ़ देखकर यह कहेंगे, “मैं इसका ख़र्च उठा सकता हूँ। मैं इसे ख़रीद सकता हूँ।” इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे।
- अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं, “मेरे पास बहुत पैसा है।”
- डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें।
- अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में सोचें।

# संबंधों का रहस्य

मैरी डायमंड

फँग शुई परामर्शदाता, शिक्षक एवं वक्ता

रहस्य का मतलब यह है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं, वह हर चीज हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएँ,

विचार और भावनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती हैं।



एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई, जो बहुत मशहूर फ़िल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर कोने में एक नग्न औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी, जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वह अपना सिर छुपा रही थी, जैसे कह रही हो, “मैं आपको नहीं देखना चाहती।” मैंने उनसे कहा, “मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी।” उन्होंने कहा, “क्या आप अंतर्यामी हैं?” मैंने कहा, “नहीं, लेकिन देखें। सात जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है।” उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे यह पेंटिंग बहुत पसंद है। मैंने इसे खुद पेंट किया है।” मैंने कहा, “यह तो और भी बुरी बात है, क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी

रचनात्मकता और सूजन शक्ति लगा दी है।”

वे बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं, जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, “आप क्या चाहते हैं?” “मैं एक सप्ताह में तीन औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ।” मैंने कहा, “ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाएँ। तीन औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाएँ और उसे अपने लिविंग रूम के हर कोने में टाँग लें।”

छह महीने बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा, “आपका प्रेम जीवन कैसा है?” “बहुत बढ़िया! अब औरतें मुझे फ़ोन करती हैं। वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती हैं।” मैंने कहा, “ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह आपकी इच्छा थी।” वे बोले, “मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे एक हफ्ते में तीन डेटिंग मिल रही हैं। मेरे कारण वे लड़ रही हैं।” मैंने कहा, “यह तो आपके लिए अच्छी बात है।” फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई, “मैं सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी चाहता हूँ, रोमांस चाहता हूँ।” मैंने कहा, “अच्छा, तो फिर उसकी पेंटिंग बनालें।” उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके एक साल बाद उनकी शादी हो गई और अब वे बहुत खुश हैं।

ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने बरसों तक डेटिंग की इच्छा की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर - उनका लिविंग रूम - हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें, तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं।

मेरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फ़ैंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं, तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें,

उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही वे शब्द बनते हैं, जो हम बोलते हैं, वे भावनाएँ जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य, जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे ऐसे विचार हैं, जिनके कारण हम काम कर रहे हैं।

हो सकता है हमें यह एहसास भी न हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या हैं, लेकिन हम अपने कामों को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फ़िल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थीं, जो सभी उससे दूर जा रही थीं। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालाँकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंगों में यह प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज़ पर केंद्रित कर पाया। एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ।

अगर आप किसी चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध न करें। इसका एक अद्भुत उदाहरण द सीक्रेट में फ़ीचर किए गए टीचर माइक डूली ने अपने ऑडियो कोर्स लीवरेंजिंग द यूनिवर्स एंड ऐंगेजिंग द मैजिक में दिया है। इसमें एक ऐसी महिला की कहानी है, जो आदर्श जीवनसाथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे : उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवनसाथी कैसा होना चाहिए, उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवनसाथी का नामोनिशान नहीं दिख रहा था।

फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी, तो उसके मुँह से आह निकल गई। उसे एहसास हो

गया कि उसके काम उसकी मनचाही चीज़ का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है, तो उसके आदर्श जीवनसाथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है! उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसे यक़ीन नहीं है कि उसे अपनी माँगी हुई चीज़ मिलेगी। तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई की और अपनी कार एक तरफ खड़ी करके दूसरी तरफ अपने आदर्श जीवनसाथी की कार के लिए जगह छोड़ दी। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की अलमारी खोली, जिसमें कपड़े ठसाठस भरे थे। उसके आदर्श जीवनसाथी के कपड़ों के लिए ज़रा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े हटा दिए। इसके अलावा, वह अपने बिस्तर के बीच में सो रही थी, इसलिए उसने “अपनी” तरफ सोना शुरू कर दिया और अपने जीवनसाथी के लिए जगह खाली छोड़ दी।

इस महिला ने डिनर पर जब यह कहानी माइक झूली को सुनाई, तो टेबल पर उसके ठीक पास उसका आदर्श जीवनसाथी बैठा था। जब उस महिला ने ये सभी सशक्त काम किए और इस तरह अभिनय किया, जैसे उसे पहले से ही अपना आदर्श जीवनसाथी मिल गया हो, तो वह उसकी जिंदगी में आ गया। अब उनका विवाह हो चुका है और वे सुखी जीवन बिता रहे हैं।

“कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने” का एक और उदाहरण मेरी बहन ग्लैंडा का है, जो द सीक्रेट फ़िल्म की प्रॉडक्शन मैनेजर है। वह ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर रही थी। वह अमेरिका आना चाहती थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में मेरे साथ काम करना चाहती थी। ग्लैंडा रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह अपने मनचाहे परिणाम को प्रकट करने के लिए सभी सही काम कर रही थी, लेकिन महीनों बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही थी।

फिर ग्लैंडा ने अपने कामों की तरफ देखा। तब जाकर उसे ऐसास हुआ कि वह “कल्पना को वास्तविक मानकर अभिनय करने” का नाटक नहीं कर रही थी, जैसे उसे अपनी माँगी हुई चीज़ मिल गई हो। तो उसने इस दिशा में सशक्त काम किए। उसने अपने जीवन की हर चीज़ को अपनी

विदाई से जोड़ दिया। उसने सदस्यताएँ रद्द कर दीं, वे सामान बाँट दिए जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और अपने सूटकेस बाहर निकालकर उन्हें पैक कर दिया। चार हफ्तों के भीतर ग्लैंडा अमेरिका में थी और हमारे अमेरिकी ऑफिस में काम कर रही थी।

इस बारे में सोचें कि आपने क्या माँगा है। फिर यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी माँगी हुई चीज़ के विरोध में न हों, बल्कि उसके अनुसूप हों। इस तरह अभिनय करें, जैसे आप मनचाही चीज़ को पा रहे हैं। वही करें, जो आप उस चीज़ के आज मिल जाने पर करते। अपने जीवन में उस सशक्त उम्मीद को प्रतिबिंधित करने के लिए क्रदम उठाएँ। अपनी इच्छाओं के लिए जगह बनाएँ। ऐसा करने पर आप उम्मीद का शक्तिशाली संकेत भेजते हैं।

## खुद पर काम करें

### लीसा निकोल्स

 संबंधों के बारे में सबसे पहले तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि संबंध किनके बीच बन रहा है और इसमें सिर्फ़ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। आपको सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है।

### जेम्स रे

आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा, अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हैं? एक बार फिर, आर्कषण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच, सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपसे इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ : क्या आप खुद के साथ बैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें?

जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण हैं, इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं, जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान् या पर्याप्त हक़क़दार नहीं हैं। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा, तो आपको और ज्यादा अनुभव होंगे, जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ़ परिणाम हैं। कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेन्सी पर पहुँचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा, जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों।

कई लोगों ने दूसरों की खातिर अपना बलिदान दिया है और वे सोचते हैं कि त्याग करने के कारण वे अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। गलत! त्याग कमी के विचारों से उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कहता है, “सबके लिए पर्याप्त नहीं है; इसलिए मैं इसके बिना रह लूँगा।” ऐसी भावनाओं से अच्छा महसूस नहीं होता है और ये अंततः द्वेष की ओर ले जाएँगी। दुनिया में हर एक के लिए प्रचुर संसाधन हैं और यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी खुद की इच्छाओं का आहवान करे। आप किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का आहवान नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी दूसरे की तरह सोच और महसूस नहीं कर सकते। आपका काम खुद को बनाना है। जब आप अच्छा महसूस करने को प्राथमिकता देते हैं, तो एक शानदार फ्रीक्वेन्सी प्रसारित होगी और आपके हर करीबी व्यक्ति को स्पर्श करेगी।

## डॉ. जॉन ग्रे

आप खुद के लिए समाधान बनते हैं। किसी दूसरे की तरफ़ उँगली उठाकर यह न कहें, “अब आप पर मेरा कर्ज़ है और आपको मुझे ज्यादा देना चाहिए।” इसके बजाय, खुद को ज्यादा दें। खुद को देने

की शुरुसत निकालें और एक तरह से खुद को पूर्णता तक भर लें, जब तक कि छलकने न लगे और आप दूसरों को देने की स्थिति में न आ जाएँ।

“प्रेम हासिल करने के लिए... इसे अपने भीतर तब तक भरें, जब तक कि आप चुंबक न बन जाएँ।”

## चाल्स हॉल

हममें से कई लोगों को यह सिखाया गया है कि हम खुद को सबसे आखिर में रखें। इसके परिणामस्वरूप हमने अयोग्य और अपात्र होने की भावनाएँ आकर्षित की हैं। जब ये भावनाएँ हमारे भीतर बस गईं, तो हम जीवन में ऐसी स्थितियों को आकर्षित करने लगे, जो हमें अयोग्यता और अपात्रता का एहसास दिलाने लगीं। आपको इस सोच को बदलना होगा।

“बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल, इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है, जब हम पाते हैं कि ‘नंबर वन की तलाश’, जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है, दरअसल ‘नंबर टू की तलाश’ है और यही दरअसल नंबर टू को स्थायी लाभ पहुँचाने का तरीका है।”

## प्रेटिस मल्फोर्ड

जब तक आप लबालब नहीं भरे होंगे, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप सबसे पहले खुद पर ध्यान दें। अपनी खुशी पर पहले ध्यान दें। लोग अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब आप अपनी खुशी का ध्यान रखते हैं और ऐसे काम करते हैं, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है, तब आप अपने

आस-पास खुशी फैलाते हैं। तब आप अपने आस-पास के हर व्यक्ति और बच्चे के लिए जगमगाती मिसाल बन जाते हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो आप देने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह तो स्वाभाविक बहाव होता है।

## लीसा निकोल्स

मैंने इस उम्मीद से कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी, तो मेरे हीरोज या मेरे “आदर्श नारी-पत्र” (she-roes) बायोनिक तुमैन, बंडर तुमैन और चार्लीज़ एंजेल्स थीं। हालाँकि वे अद्भुत थीं, लेकिन वे मुझ जैसी नहीं दिखती थीं। जब तक मैं लीसा - अपनी साँवली त्वचा, अपने भरे होंठों, अपने गोल नितंबों, अपने बुँधाराले काले बालों - से प्रेम नहीं करने लगी, तब तक बाकी दुनिया ने भी मुझसे प्रेम नहीं किया।

आपको खुद से प्रेम इसलिए करना है, क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, तो अच्छा महसूस करना असंभव है। जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप उस सारे प्रेम और भलाई को रोक देते हैं, जो ब्रह्मांड में आपके लिए मौजूद है।

जब आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे भीतर से आपकी जान निकल रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में आपकी सारी भलाई - जिसमें सेहत, दौलत और प्रेम शामिल है - खुशी और अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेन्सी पर है। असीमित ऊर्जा और सेहत की अद्भुत भावनाएँ अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेन्सी पर हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तब आप ग़लत फ्रीक्वेन्सी पर होते हैं। यह फ्रीक्वेन्सी आपकी ओर ऐसे लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है, जो आपको बुरा महसूस करते रहेंगे।

आपको अपना फोकस बदलना होगा और अपने भीतर की सभी अद्भुत

चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अपने भीतर सकारात्मक चीज़ों की तलाश करें। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आकर्षण का नियम आपको आपके बारे में और महान् चीज़ों दिखाएगा। आप जिसके बारे में सोचते हैं, उसे आकर्षित करते हैं। शुरुआत में अपने किसी अच्छे गुण के बारे में लगातार सोचें। आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करके आपको इसी जैसे ज़्यादा विचार देगा। अपने अच्छे गुणों की तलाश करें। अगर आप खोजेंगे, तो आपको मिल जाएँगे!

## बॉब प्रॉक्टर

आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं चबालीस साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को छुम्ने का होता है! आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो स्वस्थ आत्म-सम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे, तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे।

## मार्सी शिमांफ

संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, “मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं।” यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी।

भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो - सब कुछ ग़ड़ग़ड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आँख की किरकिरी बन गया हो - फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले तीस दिनों तक एक कागज पर उन सभी चीज़ों को लिखें, जिनकी आप

उस व्यक्ति में सराहना करते हों। उन सभी कारणों के बारे में सोचें, जिनकी बजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्यबोध की सराहना करते हैं, आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएँगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज्यादा मिलेंगी और समस्याएँ हवा में उड़ जाएँगी।

## लीसा निकोल्स

अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ़ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है। और वह व्यक्ति है - आप खुद! आपके माता-पिता, आपके बच्चों, आपके जीवनसाथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है।

आपकी सारी खुशी प्रेम की फ़ीवनेसी पर है - जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ़ीवनेसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में धारे नहीं रख सकते। आप तो इसे सिर्फ़ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ़ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएँ उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हों, करें। जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हों, करें। सिर्फ़ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें, जिनसे आप प्रेम करते हों। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएँगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है - कई गुना होकर! आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज्यादा चीज़ें भेजेगा, जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है।

## रहस्य संहारा

- जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हों, तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हों।
- आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते, तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है।
- खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे, जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे।
- जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं, जो आपको बुरा महसूस कराएँगे।
- उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें आप खुद में पसंद करते हों। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा, जो आपको पसंद होंगे।
- किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी।

# स्वेच्छा का रहस्य



## डॉ. जॉन हेजलिन

क्वांटम फिजिसिस्ट और सावेज़ानक नीति विशेषज्ञ

हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम विकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को नियंत्रित करती है।



## डॉ. जॉन डेमार्टिनी

उपचार के क्षेत्र में हम प्लासीबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासीबो एक ऐसी नकली दवा है, जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शकर की गोली होती है।

आप मरीज़ को प्लासीबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है।

और प्लासीबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है।

शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।

रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज्यादा स्पष्टता से इंसानों के जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासीबो इफेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वे यकीन करते हैं और उनका इलाज हो जाएगा।

## डॉ. जॉन डेमार्टिनी



अगर कोई छुटपुट बीमार है, तो वह असली दवा ले सकता है या फिर वैकल्पिक रूप से यह पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज़ उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साधित हो सकती है, तो ज़ाहिर है सही दवा लेने में ज्यादा समझदारी है। बहरहाल, दवाओं को लेने के बाद भी यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन की अपनी जगह होती है।

मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है। अगर दर्द है, तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। “संपूर्ण स्वास्थ्य” एक ऐसी चीज़ है, जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ़ कुछ भी हो रहा हो।

## लीसा निकोल्स



ब्रह्मांड प्रचुरता का ख़जाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल लेते हैं, तो आप रोमांच, खुशी, आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे, जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है – अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा।



## डॉ. बेन जॉनसन

डॉक्टर, लेखक और एनजी हीलिंग के अग्रणी विशेषज्ञ

हमारे पास हजारों बीमारियाँ और दवाएँ हैं, लेकिन वे सिर्फ़ कमज़ोर कड़ी हैं। सभी बीमारियाँ सिर्फ़ एक चीज़ के कारण होती हैं : तनाव। अगर आप किसी कड़ी या सिस्टम पर ज्यादा दबाव या तनाव डालते हैं, तो वह कड़ी दूट जाती है।

सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है, जिस पर काबू नहीं किया गया। इसके बाद वैसे ही दूसरे विचार आ धमकते हैं और अंततः तनाव प्रकट हो जाता है। तनाव परिणाम है, लेकिन कारण नकारात्मक चिंतन है और यह सब एक छोटे से नकारात्मक विचार से शुरू हुआ था। चाहे आपने जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं... एक छोटे सकारात्मक विचार से और फिर उसके बाद एक और सकारात्मक विचार से।

## डॉ. जॉन डेमार्टिनी



हमारा शारीरिक तंत्र हमें फ़ीडबैक देने के लिए बीमारी उत्पन्न करता है। इसके माध्यम से यह हमें बताता है कि हमारा ट्रॉपिकोन संतुलित नहीं है या हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। शरीर के संकेत और लक्षण कोई भयंकर चीज़ नहीं हैं।


डॉ. डेमार्टिनी हमें बता रहे हैं कि प्रेम और कृतज्ञता हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे, चाहे नकारात्मकता कितनी ही बड़ी हो। प्रेम और कृतज्ञता समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, पहाड़ हिला सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं। इसी तरह प्रेम और कृतज्ञता किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं, “जब कोई व्यक्ति अपने शरीर रुपी मंदिर में कोई बीमारी उत्पन्न कर लेता है या अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी ले आता है, तो क्या ‘सही’ सोच की शक्ति से इसे सुधारा जा सकता है?” जवाब बिलकुल स्पष्ट है, हाँ!

## हँसी सर्वश्रेष्ठ इलाज है

### कैथी गुडमैन, एक व्यक्तिगत कहानी



मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मुझे अपने दिल में पूरी आस्था और सच्चा विश्वास था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं कहती थी, “मेरे उपचार के लिए धन्यवाद!” लगातार मैं कहती थी, “मेरे उपचार के लिए धन्यवाद!” मैंने अपने दिल में यक़ीन कर लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने खुद को इस रूप में देखा, जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं।

मैंने अपना इलाज करने के लिए एक और साधन का इस्तेमाल किया। मैं बहुत मज़ेदार फ़िल्में देखने लगी। मैं बस हँसती थी, हँसती थी और दिल खोलकर हँसती थी। तनाव लेने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि उपचार की कोशिश करते समय तनाव बहुत बुरी चीज हो सकती है।

बीमारी का पता चलने और इसके ठीक होने के बीच लगभग तीन महीने का फ़ासला रहा। और यह उपचार बिना किसी रेडिएशन या क्रीमोथेरेपी के हो गया।

 कैथी गुडमैन की यह सुंदर और प्रेरक कहानी तीन ज़बर्दस्त शक्तियों के कार्यरत होने का उदाहरण है : उपचार के लिए कृतज्ञता की शक्ति, मनचाही

चीज़ पाने के लिए आस्था की शक्ति और हमारे शरीर की बीमारी बाहर निकालने के लिए हँसी व खुशी की शक्ति।

कैथी अपने उपचार में हँसी शामिल करने के लिए इसलिए प्रेरित हुई, क्योंकि उन्होंने नॉर्मन कजिन्स की कहानी सुन ली थी।

नॉर्मन को एक “असाध्य” बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह सिर्फ़ कुछ महीनों का मेहमान है। नॉर्मन ने अपना इलाज खुद करने का फ़ैसला किया। तीन महीनों तक उसने सिर्फ़ मज़ेदार फ़िल्में देखीं और वह हँसता रहा, हँसता रहा। उन तीन महीनों के भीतर बीमारी उसके शरीर से चली गई। डॉक्टरों ने उसके उपचार को घमत्कार की संज्ञा दी।

जब नॉर्मन दिल खोलकर हँसा, तो उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकाल गई और साथ में उसकी बीमारी भी बाहर निकल गई। हँसी सचमुच सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है।

### डॉ. बेन जॉनसन

हम सभी में एक अंदरूनी मूलभूत प्रोग्राम होता है। इसे

“आत्म-उपचार” कहा जाता है। जब आपको कोई घाव होता है, तो वह दोबारा ठीक हो जाता है। जब आपको बैकटीरियल इफ़ेक्शन होता है, तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुक़ाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। प्रतिरोधक तंत्र अपना इलाज खुद करने के लिए बनाया गया है।

### बॉब प्रॉक्टर

बीमारी स्वस्थ भावनात्मक अवस्था वाले शरीर में नहीं रह सकती है। हमारा शरीर हर सेकंड लाखों कोशिकाओं को बाहर निकाल रहा है और साथ ही यह लाखों नई कोशिकाएँ बना भी रहा है।

## डॉ. जॉन हेजलिन

सच तो यह है कि हमारे शरीर के कुछ हिस्से हर दिन बदलते हैं। कई हिस्से कुछ महीनों में बदलते हैं और बाकी कुछ सालों में। लेकिन कुछ सालों के भीतर हममें से हर एक के पास बिलकुल नया शरीर होता है।

विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी हमारे शरीर में सालों तक रहती है? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ विचारों के कारण ही मौजूद है, क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा है।

## पूर्णता के विचार सोचें

पूर्णता (perfection) के विचार सोचें। बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती, जिसमें सद्भावनापूर्ण विचार हों। जान लें कि सिर्फ़ पूर्णता ही सच है। जब आप पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसका आह्वान करके उसे अपनी ओर बुलाते हैं। अपूर्ण विचार पूरी मानव जाति के कष्टों के कारण हैं, जिनमें रोग, गरीबी और दुख शामिल हैं। नकारात्मक विचार सोचते समय हम खुद को अपनी सही विरासत से अलग कर लेते हैं। इसके बजाय यह धोषणा करें और विश्वास रखें, “मैं सिर्फ़ आदर्श विचार सोचता हूँ। मैं सिर्फ़ आदर्श चीजें देखता हूँ। मैं आदर्श हूँ।”

मैंने अपने शरीर से कठोरता और सुस्ती को बाहर निकाल दिया। मैंने अपने शरीर को किसी बच्चे के शरीर की तरह लचीला और आदर्श देखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय में ही जोड़ों का दर्द और कठोरता गायब हो गई। तच तो यह है कि मैंने यह काम रातोरात कर लिया।

इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएँ भी हमारे मस्तिष्क में ही होती हैं। वैज्ञानिक वृष्टि से हमारा शरीर बहुत कम समय में ही बिलकुल नया हो जाता है। बुढ़ापा सीमाबद्ध चिंतन है, इसलिए इससे संबंधित विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें और यह जान लें कि चाहे आपने अपने दिमाग में कितने ही जन्मदिन मना लिए हों, आपका शरीर सिर्फ़ चंद महीनों पुराना है। जब आपका अगला जन्मदिन आए, तो खुद पर एक एहसान करें और इसे अपने पहले जन्मदिन की तरह मनाएँ! अपने केक पर साठ कैंडल न लगाएँ, जब तक कि आप बुढ़ापे का आह्वान करके उसे अपनी तरफ न बुलाना चाहें। दुर्भाग्य से, पाश्चात्य समाज बुढ़ापे पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है।

सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं।

## बॉब प्रॉक्टर

मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अधिक रोगी कोशिकाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें। बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें।

बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय इसी के बारे में बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप योड़े बीमार महसूस कर रहे हों, तो उसके बारे में बात न करें - जब तक कि आप उस स्थिति में ज्यादा समय न रहना चाहते हों। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएँ, “मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ,” और सचमुच इसे महसूस करें।

अगर आप बहुत बढ़िया महसूस न कर रहे हों और कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस इस बारे में कृतज्ञ रहें कि व्यक्ति ने आपको बढ़िया महसूस करने के विचार सोचने की याद दिलाई है। सिफ़र अपनी मनचाही चीज़ के बारे में ही बोलें।

आप किसी चीज़ को तब तक नहीं “पकड़” सकते, जब तक कि आप यह न सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कोई काम कर सकते हैं, यह सोचना विचार द्वारा उसे अपने पास आने का आमंत्रण देना है। लोगों की बीमारी का विस्तृत ब्योरा सुनते समय भी आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। दूसरों की बीमारी का ब्योरा सुनते समय आपका पूरा विचार और ध्यान बीमारी पर केंद्रित है। याद रखें, जब आप किसी चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसे ब्रह्मांड से माँग रहे हैं। और आप निश्चित रूप से बीमार व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे हैं। आप उसकी बीमारी में अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। अगर आप सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तो संभव होने पर बातचीत को अच्छी चीजों की तरफ़ मोड़ दें, वरना अपने रास्ते चले जाएँ। जाते वक्त उस व्यक्ति को स्वस्थ होने के सशक्त विचार और भावनाएँ देकर जाएँ और बात वहीं ख़त्म कर दें।

## लीसा निकोल्स

मान लें आपके पास दो लोग हैं, जो एक ही चीज़ के शिकार हैं। उनमें से एक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है, वह संभावना और आशा में जीता है, वह उन सभी कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे खुश और कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज़ का शिकार है, लेकिन वह बीमारी, दर्द और “बदक्रिस्मती” पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनता है। इनमें से कौन सा तरीका बेहतर है?

## बॉब डॉयल

यदि लोग बीमारी और उसके लक्षणों पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे उसे बढ़ावा देते हैं। उपचार तब तक नहीं होगा, जब तक कि वे अपना ध्यान बीमारी के बजाय सेहत पर केंद्रित नहीं कर लेंगे। क्योंकि यही आकर्षण का नियम है।

“जहाँ तक संभव हो, हमें याद रखना चाहिए कि हर अप्रिय विचार एक बुरी चीज़ की तरह होता है, जिसे हम अपने शरीर में रखते हैं।”

**ग्रोटीस्म मल्टफ़ोर्ड**

## डॉ. जॉन हेजलिन

जब हमारे विचार खुशनुमा होते हैं, तो हमारी बायोकेमिस्ट्री भी खुशनुमा बन जाती है, जिससे हमारा शरीर सेहतमंद रहता है और हम खुश रहते हैं। नकारात्मक विचार और तनाव शरीर व मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बुरी तरह कमज़ोर कर देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर को लगातार बनाते तथा व्यवस्थित करते रहते हैं, उसे लगातार नया बनाते रहते हैं।

आपने अपने शरीर में अब तक चाहे जो भी उत्पन्न किया हो, आप उसे बदल सकते हैं – अंदर से भी और बाहर से भी। खुशी भरे विचार सोचना और खुश रहना शुरू करें। खुशी महसूस करने की अवस्था है। आपकी उँगली “खुश महसूस करना” के बटन पर है। उसे अभी दबा दें और दृढ़ता से दबाए रखें, चाहे आपके चारों तरफ़ जो भी हो रहा हो।

## डॉ. बेन जॉनसन

शारीरिक तनाव को हटा लें। इसके बाद शरीर वह करता है, जिसके लिए इसे बनाया गया है। यह खुद का उपचार करता है।

बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जूझने की जरूरत नहीं होती है। बस नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की आसान प्रक्रिया का पालन करें। इससे आपके भीतर सेहत की प्राकृतिक अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और शरीर अपना उपचार खुद कर लेगा।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

मैंने किडनियों को दोबारा ठीक होते देखा है। मैंने कैंसर को ग्रायब होते देखा है। मैंने आँखों की ज्योति को सुधरते और लौटते देखा है।

रहस्य का पता लगने से पहले मैं तीन साल से पढ़ने का चश्मा लगा रहा था। एक रात को जब मैं रहस्य के ज्ञान की सदियों लंबी यात्रा को टटोल रहा था, तो मैंने पढ़ने के लिए अपना चश्मा उठाया। लेकिन मैं बीच रास्ते में ही रुक गया। मुझे अपना यह काम बिजली के झटके की तरह लगा।

मैंने लोगों की बातें सुनी थीं कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम होती जाती है। मैंने लोगों को अपने हाथ दूर रखकर पुस्तक या अख्बार पढ़ते देखा था। मैंने इस विचार को मान लिया था कि उम्र के साथ आँखों की रोशनी कम हो जाती है और मैंने इसे अपने मन में जगह दे दी थी। मैंने यह काम जान-बूझकर नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था। मैं जानता था कि मैं अपने विचारों के कारण जिस चीज़ को अस्तित्व में लाया हूँ, उसे बदल सकता हूँ, इसलिए मैंने तत्काल कल्पना की कि मैं उतनी ही स्पष्टता से देख रहा हूँ, जितना इक्कीस साल की उम्र में देखता था। मैंने मानसिक तस्वीर बनाकर खुद को अँधेरे रेस्तराँओं, हवाई जहाजों और अपने कंप्यूटर पर स्पष्टता तथा बिना कोशिश के पढ़ते देखा। और मैंने खुद से बार-बार कहा, “मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ, मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ।” मैंने अपनी आँखों की दृष्टि स्पष्ट होने पर कृतज्ञता और रोमांच की भावनाएँ महसूस कीं। तीन दिनों में ही मेरी आँखों की रोशनी बिलकुल ठीक हो गई और पढ़ने का चश्मा उत्तर गया। अब मैं स्पष्टता से देख सकता हूँ।

जब मैंने द सीक्रेट के एक टीचर डॉ. बेन जॉनसन को यह प्रसंग बताया, तो वे बोले, “क्या तुम्हें एहसास है कि तीन दिनों के भीतर यह काम करने के लिए तुम्हारी आँखों को किस चीज़ से गुज़रना पड़ा होगा?” मैंने जवाब दिया, “नहीं, और ईश्वर का शुक्र है कि मुझे पता नहीं है, इसलिए वह विचार मेरे दिमाग में आया ही नहीं! मैं तो बस इतना जानता था कि मैं यह काम कर सकता हूँ और तेज़ी से कर सकता हूँ।” (कई बार अज्ञान से लाभ होता है!)

डॉ. जॉनसन ने अपने शरीर से एक “असाध्य” बीमारी को हटा दिया था, इसलिए उनके चमत्कार की तुलना में मेरी आँखों की रोशनी का लौटना मुझे छोटी बात लगी थी। सच तो यह है कि मुझे अपनी आँखों की रोशनी एक ही रात में लौटने की उम्मीद थी, इसलिए तीन दिनों में इस चीज़ का होना मुझे चमत्कारिक नहीं लगा था। याद रखें, ब्रह्मांड में समय और आकार का कोई महत्व नहीं होता है। मुँहासों का इलाज करना भी किसी बीमारी के इलाज जितना ही आसान है। प्रक्रिया समान है; फ़र्क सिर्फ़ हमारे दिमाग में है। अगर आपने किसी बीमारी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, तो उसे मुँहासों जितना बड़ा मानें, फिर सारे नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दें और आदर्श सेहत पर ध्यान केंद्रित करें।

## कोई चीज़ लाइलाज नहीं होती है

डॉ. जॉन डेमार्टिनी

 मैं हमेशा कहता हूँ, लाइलाज का मतलब है, “भीतर से इलाज संभव है।”

मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी न कभी हर तथाकथित लाइलाज बीमारी का इलाज हुआ है। मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में “लाइलाज” का अस्तित्व ही नहीं है। इस दुनिया

मैं आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है, जहाँ हर दिन “चमत्कार” होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है, जिसमें प्रचुरता की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ सारी अच्छी चीजें अभी, आपके भीतर मौजूद हैं। स्वर्ग जैसा लगता है, है ना? यह सचमुच ऐसा ही है।

## मॉइकल बनार्ड बेकविथ

आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं।



### मॉरिस गुडमैन

#### लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता

मेरी कहानी 10 मार्च, 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा हवाई जहाज टकरा गया।

मुझे पूरी तरह अपना हालत में अस्पताल पहुँचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी, मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टेब्रा टूट गई थी, मेरी निगलने की क्षमता ख़त्म हो गई थी, मैं खा-पी नहीं सकता था, मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था, मैं साँस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। ज़ाहिर है, डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं ज़िंदगी भर अपने ही रहूँगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई क्रक्कर नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था।

अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ़ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, तो आप हर चीज़ को दोबारा सही कर सकते हैं।

मुझे रेसिपरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी साँस नहीं ले पाऊँगा। लेकिन एक छोटी आवाज मुझसे बार-बार कहती रही, “गहरी साँस लो, गहरी साँस लो।” और आखिरकार मेरा रेसिपरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था, जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए।

मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था। और मैंने यह काम कर दिखाया। मैं अपने दोनों पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला, हालाँकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊँगा।

अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, तो मैं इसे संक्षेप में खारह शब्दों में बता सकता हूँ, “इंसान वह बन जाता है, जिसके बारे में वह सोचता है।”

मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया, क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति उसे उत्पन्न कर देगी। हर चीज़ संभव है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार में बदल लिया।

द सीक्रेट फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ आ गई, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि यह द सीक्रेट देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यक़ीन है, तो हर चीज़ संभव है।

मैं डॉ. बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत खेल करना चाहूँगी : “हम अब ऊर्जा विकित्सा के युग में क्रदम रख रहे हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ की एक फ़ीक्वेन्सी है और आपको बस फ़ीक्वेन्सी बदलना है या अवसर की फ़ीक्वेन्सी उत्पन्न करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज़ को बदलना बहुत आसान है, चाहे वह बीमारी हो या भावनात्मक मुद्दे हों या कोई और चीज़ हो। यह बहुत विराट संभावना है। यह हमारे सामने प्रकट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है।”

## रहस्य संग्रह

- प्लासीबो इफ़ेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यक़ीन करता है कि शकर की गोली असली दवा है, तो उसे वही मिलता है, जिस पर वह यक़ीन करता है और उसका इलाज हो जाता है।
- “संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना” एक ऐसी चीज़ है, जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो।
- हँसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है।
- बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है, क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं, तो इस बारे में बात न करें – जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना न चाहते हों। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं, तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय, बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें।
- बुढ़ापे की धारणाएँ हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और विर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें।
- बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान न दें। नकारात्मक सदेशों से आपका भला नहीं होगा।

# संसार का रहस्य

## लीसा निकोल्स

लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं, उनकी तरफ़ देखकर हमेशा कहते हैं, “हाँ, मैं इसे पसंद करता हूँ। मैं इसे चाहता हूँ।” बहरहाल, जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते हैं, उनकी तरफ़ देखने में भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ़ देखकर वे अक्सर सोचते हैं कि वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाही चीज़ों की ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ़ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ़ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ़ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ़ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ़ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ़ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ़ संघर्ष। हममें हर उस चीज़ से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है।

## हेल ड्रॉस्किन

द सेडोना मेथड के लेखक एवं टीचर



हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे उत्पन्न कर

लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ़ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है।

“जिसका आप प्रतिरोध करते हैं, वह जारी रहता है।”

**काल्प युवा (1875-1961)**

## बॉब डॉयल

आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं, उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, “नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूँ - जिस तरह इस बक्त बहसूस कर रहा हूँ।” सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, “मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ।” नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है।

किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है, क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरथक कोशिश है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा।

जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं, तो आप अनचाही तस्वीरों को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएँ या परिस्थितियाँ ज्यादा बुरी बन सकती हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है।

## जैक कैनफील्ड

युद्ध-विरोधी मुहिम से ज्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। नशा-विरोधी मुहिम से ज्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। कारण यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं - नशीले पदार्थ!

## लीसा निकोल्स

लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच खत्म करना चाहते हैं, तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या किर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें?

## जैक कैनफील्ड

मदर टेरेसा सचमुच महान थीं। उन्होंने एक बार कहा था, “मैं कभी किसी युद्ध-विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें, तो मुझे ज़रूर बुलाएँ।” वे जानती थीं। वे रहस्य समझती थीं। आप खुद ही देख लें, उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है!

## हेल ड्वोस्किन

अगर आप युद्ध विरोधी हैं, तो इसके बजाय शांति-समर्थक बनें। अगर आप भूख-विरोधी हैं, तो उन लोगों के समर्थक बनें, जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं, तो उसके विरोधी के समर्थक बनें। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं, जिसका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है।

इस दुनिया की हर चीज़ एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीज़ें ज्यादा बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग़ बुरी चीज़ पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित कर लें, तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में ही नहीं रह सकती। वह ग़ायब हो जाएगी।

“यह कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो, आपके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ खुद को उस चीज़ की सच्चाई का यकीन दिलाना है, जिसे आप साकार देखना चाहते हैं।”

## चार्मस्ट हालेल



### जैक कैनफील्ड

अनचाही चीजों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको यह तुलना करने का अवसर मिलता है, “मैं इस चीज़ को चाहता हूँ।” लेकिन सच्चाई यह है कि आप अनचाही चीजों के बारे में जितनी ज्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराइयों का जितना ज्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ते हैं और फिर जितना ज्यादा कहते हैं कि वे कितनी भयंकर हैं - तो यकीन मानें, आप उन अनचाही चीजों और बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।

नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न सिर्फ़ उन्हें बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजों भी ले आते हैं।

जब अनचाही चीजों की तस्वीरें ज़िंदगी में प्रकट हों, तो यह एक संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने विंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है, तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। मनचाही चीजों के बारे

में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके आस-पास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएँ प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं।

### जेम्स रे

बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, “देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है।” जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए।

रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ नहीं देखूँगा और अखबार नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। बुरी ख़बरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेस और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज़ ख़बर सुर्खियों में छपती है, तो हम ज़्यादा अखबार ख़रीदते हैं। जब कोई रास्त्रीय या अंतर्रास्त्रीय विभीषिका होती है, तो न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेस ज़्यादा बुरी ख़बर इसीलिए देते हैं, क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण हैं; मीडिया तो सिर्फ़ परिणाम है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है।

न्यूज़ सर्विसेस और अखबार हमें जो दे रहे हैं, वह तभी बदलेगा, जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें हम चाहते हैं।

### माइकल बनर्ड बेकविथ

स्थिर रहना और अनचाही चीजों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीजों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को ख़त्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ें, जिसे आप बाक़र्ड देखना चाहते हैं ... जहाँ ध्यान जाता है, वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है।

“अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें, तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं।”

**छटेस्टीयो बोनर (1808-1889)**

क्या आप उस ज़बदस्त शक्ति को समझ रहे हैं, जो इस दुनिया में आपके पास है ? जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। साथ ही, आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं।

नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है।

### डॉ. जॉन डेमार्टिनी

मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज और दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज़ हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है!

### लीसा निकोल्स

दुनिया या अपने आस-पास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है।

आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हों, तो उन्हें स्थीकार करें। हो सके, तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें। फिर उन्हें नज़रअंदाज़ कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें। उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएँ और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें।

## ब्रह्मांड का मंडल अनंत है



### डॉ. जो विटाल

मुझसे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटेलॉग मान लेंगे, तो क्या हमारा सामान ख़त्म नहीं हो जाएगा ? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा ?



### माइकल बर्नार्ड बेकविथ

रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है।

मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है। और वह झूठ यह है, “इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है।” यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी ज़िंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है।

सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है। पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार हैं। पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है। पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है। पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है, जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है।

दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं, जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नज़र आएगी। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती

है; हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है। तो फिर कोई कभी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीज़ें भी असीमित हैं, जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है।

## जेम्स रे

 इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता (abundance) होनी चाहिए।

“इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए; प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में चक्रीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दें।”

## रॉबर्ट कॉलिन्स

### जॉन असाराफ़

 जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं, तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं, जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है।

बेलिज़ ऑइल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। बेलिज़ नैचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को ह्यूमैनिस्टिक फ़िज़ियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉ. टोनी विवन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉ. विवन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में

बेलिज़ की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक क़दम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और एक साल में ही उनका सपना और भविष्य-दृष्टि हकीकत बन गई। बेलिज़ नैचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया, जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह थी कि यह कंपनी वहाँ तेल खोजने में सफल हुई, जहाँ पचास अन्य कंपनियाँ असफल हो गई थीं। बेलिज़ तेल-उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यक्कीन किया था।

कोई चीज़ सीमित नहीं है - न तो संसाधन, न ही कुछ और। यह सिर्फ़ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे, तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिलकुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे।

## डॉ. जॉन डेमार्टिनी

 हालाँकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य-दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आस-पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं।

## डॉ. जो विटाल

 देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं, तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते हैं। यही तो अद्भुत बात है। हम सब बीएमडब्ल्यू कार नहीं चाहते हैं। हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं। हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं। हम सब ... (खाली स्थान भर लें) नहीं चाहते हैं।

आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है! आप अपने लिए जो बना सकते हैं, उसकी

कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है! लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते। आप उनके लिए नहीं सोच सकते और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है।

“अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है – वहाँ कोई भेदभाव नहीं है।”

## सेव्स्ट कॉलेज

ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीजें देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीजें रहें? तो उसे चुन लें और यह जान लें, “हर चीज प्रचुरता में है।” “आपूर्ति असीमित है।” “दुनिया बहुत भव्य है।” हममें से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने की सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं।

## लीसा निकोल्स

आप जो भी चीज चाहते हैं, वह हर चीज – खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद – यहाँ पर है और आपकी मुद्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी।

आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएँगे, तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज आप तक पहुँचा देगा। अपने आस-पास की सुदर और अद्भुत चीजों को देखें। उन्हें आशीष दें व उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ, अगर कुछ चीजें मनचाही न हों या आपके मनमाफिक काम न कर रही हों, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज को गले लगाएँ, ताकि आपको वह ज्यादा मिल सके।

लीसा के ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने मूल्यवान हैं कि अपने आस-पास की चीजों को “आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें।” अपने जीवन में भौजूद हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें! तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ़्रीक्वेन्सी पर होते हैं। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है, जब वे छोंकते हैं और इसलिए वे इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। डिक्षणरी आशीष (blessing) की यह परिभाषा देती है, “दैवी आशीर्वाद माँगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना।” तो इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जाग्रत करना शुरू कर दें और हर चीज तथा व्यक्ति को आशीष दें। इसी तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और जब आप यह शानदार फ़्रीक्वेन्सी प्रेषित करते हैं, तो यह सौ गुनी होकर आपकी ओर लौटेगी।

तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता घुल जाती है, इसलिए

अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं, तो वह शाप पलटकर आपको नुकसान पहुँचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, तो आप सारी नकारात्मकता और वैमनस्य को धो डालते हैं तथा तारीफ व आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएँ महसूस होंगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फ़ीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ़ीक्वेन्सी पर पहुँच रहे हैं।

## डॉ. डेनिस वेटली

 अतीत में ज्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से से चूक गए, जो दूसरों का सशक्तीकरण और सहभागिता है।

जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी ऊँगलियों में है।

इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं - दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में। दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान रॉवर्ट कॉलियर, प्रेटिस मलफोर्ड, चार्ल्स हानेल और माइकल बर्नार्ड बेकविथ के शिक्षण से मिला है। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुँच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे।

## ) रहस्य संहिता

- आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएँ और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें।
- आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न सिर्फ़ उन्हें बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीजों को भी बढ़ा लेते हैं।
- दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएँ।
- दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए।
- आपमें अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है।
- दुनिया की हर चीज़ की तारीफ़ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊँची फ़ीक्वेन्सी - प्रेम - पर पहुँच जाएँगे।

# आपके लिए रहस्य



## डॉ. जॉन हेजलिन

चारों ओर, यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नज़र आता है, वह आइसबर्ग का सिर्फ़ ऊपरी हिस्सा है।



## बॉब प्रॉक्टर

इस बारे में एक पल सोचें। अपने हाथ की तरफ़ देखें। यह ठोस दिखता है, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी।



## जॉन असाराफ़

हर चीज़ एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वह आपका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा हो।



## डॉ. बेन जॉनसन

हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए, मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। पहले तो ब्रह्मांड है, किर हमारी आकाशगंगा, किर

हमारा ग्रह, और फिर इंसान हैं। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएँ हैं, फिर अणु हैं और फिर परमाणु। और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है।

रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया, वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फ़िज़िक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में हैं। ये खोजें इतिहास के सभी महान् दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी हैं। इस दुनिया में इस वक्त ज़िदगी विताना बहुत रोमांचक अनुभव है।

मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फ़िज़िक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ीं, तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई। क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फ़िज़िक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं, तो इससे कई लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाता है।

आइए, मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टॉवर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ़ीक्वेन्सी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ़ीक्वेन्सी पर कंपन (vibration) करते हैं और आपकी फ़ीक्वेन्सी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ें चाहते हैं, वे भी ऊर्जा से बनी हैं और कंपन कर रही हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है।

यहाँ पर “वाह” तत्व प्रकट होता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ के

बारे में सोचते हैं और उस फ़ीक्वेन्सी को भेजते हैं, तो कुछ होता है। आप उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ़ीक्वेन्सी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं! जब आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टॉवर इसलिए हैं, क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज़ की फ़ीक्वेन्सी पर पहुँचकर उसके कंपनों को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खिंची चली आती है।

जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, तो आप तत्काल उनकी फ़ीक्वेन्सी पर पहुँच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज़ में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएँ ही हमारी फ़ीक्वेन्सी तय करती हैं।

सौ साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थीं, तब भी चार्ल्स हानेल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है।

“ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ़ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान (substance) है और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है, जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्रीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते

हैं। फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। अणु भौतिक आकार लेते हैं और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है, सिर्फ परमाणुओं की नहीं, बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज़ की, जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है।”

### चार्टर्स छान्डोल

#### बॉब प्रॉक्टर

“आप चाहे जिस शहर में रहते हों, मुझे यक़ीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग एक सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं।

“इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना ‘बिजली का तार’ बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार (live wire) है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है, तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है।”

### चार्टर्स छान्डोल

#### जेम्स रे

“ज्यादातर लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभ्रष्ट करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं : आप एक क्वांटम फ़िजिसिस्ट के पास जाकर पूछते हैं, “यह दुनिया किस चीज़ से बनी है?” वह जवाब देगा, “ऊर्जा से।” ऊर्जा का वर्णन करें। “ठीक है। इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, यह हमेशा थी, हमेशा

रही है, हर चीज़ जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है, यह आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है।” आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछते हैं, “ब्रह्मांड किसने बनाया” वह जवाब देगा, “ईश्वर ने।” ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। “हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा।” देखा, वर्णन वही है, वस शब्दावली अलग-अलग है।

तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ़ “माँस के टुकड़े” हैं, जो गोल-गोल धूम रहे हैं, तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं! आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं, जो एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है।

यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है। और इसका मतलब है आप! आपका सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते।

गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं। क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं।

## एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क

 डॉ. जॉन हेजलिन

क्वांटम मैक्रोनिक्स और क्वांटम कॉमोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उत्पन्न होता है और हमारे चारों ओर की यह सारी सामग्री बस विचारों का प्रकटीकरण है। अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीजों को पाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की रचना कर लें। अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज़ रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड को चलाती है।

आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहील को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ़ अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं, बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं। इसलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतर्संबंधों को पहचानते और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है।

कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉ. हेजलिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज़ ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ सर्वव्यापक मस्तिष्क (universal mind) न हो। यह हर चीज़ में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है, और यह हर चीज़ है और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज़ सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और यह

मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है, तो यह आपमें भी है!

मैं अब यह समझने में आपकी मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या न जानता हो।

आप इससे अपनी मनचाही चीजों कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पनाशक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें, जो पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। कल्पना करें कि क्या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार हैं। आवश्यकताओं की तलाश करें और फिर कल्पना करें और उनकी पूर्ति के बारे में सोचकर उसे साकार कर लें। आपको खोज या आविष्कार ढूँढ़ने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में वह संभावना पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित रखना है और वह आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करना है। अगर आप इतना कर देते हैं, तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप माँगते हैं, महसुस करते हैं और यक़ीन करते हैं, तो आपको मिल जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार करें। हर चीज़ आपकी चेतना में मौजूद है।

“दैवी मस्तिष्क एकमात्र सच्चाई है।”

**चार्ल्स फिल्मोर**

## जॉन असाराफ़

हम सभी जुड़े हैं। हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। “बाहर वहाँ” और “अंदर वहाँ” का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज़ जुड़ी है। यह एक खुद कर्जा क्षेत्र है।

आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं। हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा हैं। आप इसे चाहे जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं।

सबके एक होने के संदर्भ में अगर अब आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे, तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएँगे।

आप समझ जाएँगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुँचाएँगे। हम एक हैं! आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता, जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में न लाएँ। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएँ रखते हैं, तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें। उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं।

प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं, तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है, जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और

संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा करके आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएँगे। हम सब एक हैं, इसलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो आप खुद के खिलाफ़ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग़ से बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ़ अपने सपनों, अपनी भविष्य-दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें।

ब्रह्मांड हर चीज़ की आपूर्ति करता है। हर चीज़ ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुँचाई जाती है। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही मानें। यही वह नियम है, जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज़ पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की आदर्श फ़ीकरेंसी भेजते हैं, तो आदर्श लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएँ आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वह चीज़ पहुँचा देंगी!

लोग आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह ग़लत धारणा है, तो आप कभी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है, आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दें। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, तो याद रखें कि आपने उस चीज़ की फ़ीकरेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज़ में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज़ पहुँचा दी, क्योंकि यही नियम है।

## लीसा निकोल्स

हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है। और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन हैं। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप हैं, जिसे आदर्श बनाया गया है।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र हैं। यह सब सच है।

“आप जो हैं, उसका निन्यानवे प्रतिशत अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता।”

आर. ब्लॉमिंस्टर-फुलर (1895-1983)

आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं, आत्मा हैं। आप शाश्वत जीवन हैं, जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समूची शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान हैं। आप समूची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं।

## जेम्स रे


हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आपमें ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आपमें अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है।

हो सकता है आपने ऐसी चीजों की रचना की हो, जो अद्भुत हों और आपके क्राबिल हों। या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल पर विचार करें, “आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं? और क्या वे सचमुच आपके क्राबिल हैं?” अगर वे आपके क्राबिल नहीं हैं, तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? क्योंकि आपमें ऐसा करने की शक्ति है।

“सारी शक्ति भीतर से आती है, इसलिए यह हमारे नियंत्रण में है।”

रॉबर्ट कॉलिन्स

## आप अपना अतीत नहीं हैं



### जैक कैनफील्ड

बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है, वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता-पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85 प्रतिशत परिवार विघटनकारी होते हैं, इसलिए अचानक आपको यह इहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं।

मेरे माता-पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे, जब मैं छह साल का था, तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया .... मेरा मतलब है, यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं,

तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीजें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है, जब अनचाहा हिस्सा बिलकुल ओझल हो जाता है।

“जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्थाह पहलू पर केंद्रित रखता है, वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार-बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता है, तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा।”

### प्रेटिस मलफोर्ड

अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो। इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ़ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं, जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जिसके आप हक्कदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएँ भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी धूम जाएगी।

### लीसा निकोल्स

आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है, जिसे आप चुनते हैं।

### माइकल बर्नार्ड बेकविथ

आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहाँ हैं, वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय “असली सोच” से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा।

### डॉ. जो विटाल

देखिए, आपके मन में कई धारणाएँ होंगी, जैसे, “ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज्यादा है।” या आपके मन में यह विश्वास होगा कि, “मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, बल्कि जवान हो रहा हूँ।” आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें, बन सकते हैं।

### माइकल बर्नार्ड बेकविथ

आप खुद को अपनी ग़लत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साक्षित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज्यादा बड़ी है।

### डॉ. फ्रेड एलन वोल्फ़

हो सकता है आप सोच रहे हों, “यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता।” या, “मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देरी!” या, “मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा।” या, “यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं।” या, “मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ।” या, “मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ।” या, “मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ।”

“मैं नहीं हूँ” का हर वाक्य एक रचना है!

“मैं नहीं हूँ,” कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं... हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉ. वोल्फ़ ने जो सशक्त सलाह दी है, वह सभी भवान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं “मैं... हूँ,” तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सूजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के स्थप में इसकी धोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए जब आप कहते हैं, “मैं थका हुआ हूँ” या “मैं कड़का हूँ,” या “मैं बीमार हूँ” या “मैं देर से पढ़ूँच रहा हूँ” या “मैं मोटा हूँ” या “मैं बूढ़ा हूँ,” तो जिन्न कहता है, “आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है।”

यह जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों में... हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें? यह कैसा रहेगा, “मैं हर अच्छी चीज़ पा रहा हूँ। मैं खुश हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं प्रेमपूर्ण हूँ। मैं समय का पावंद हूँ। मैं चिर युवा हूँ। मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ।”

अपनी पुस्तक द मास्टर की सिस्टम में चार्ल्स हानेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज़ को समाहित करता है, जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है कि यह संकल्प सभी चीजों के लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं, “इसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है और जब सत्य प्रकट होता है, तो हर तरह की ग़लती या मतभेद ग़ायब हो जाते हैं।”

यह संकल्प है : “मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेमपूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूँ।”

अगर आपको अपनी मनचाही चीज़ अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीक़ा मेहनत भरा लगता हो, तो इस शॉटकट को आज़माएँ - आप

जो चाहते हों, उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं, वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप माँगते हैं, उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र में सत्य होता है और वह क्षेत्र मौजूद होता है। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, तो यह विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता।

“यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आदर्श स्वरूप में यकीन करने की हिम्मत करें। उस आदर्श स्वरूप के बारे में इस तरह सोचें, जैसे यह सच हो चुका है।”

### चार्ल्स हानेल

जब हेनरी फ़ोर्ड दुनिया में अपनी कार के सपने को साकार कर रहे थे, तो उनके आस-पास के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें पाणल समझा; क्योंकि उनकी निगाह में वे इतने “अजीब” सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फ़ोर्ड मज़ाक उड़ाने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार थे। वे रहस्य जानते थे और वे ब्रह्मांड का नियम जानते थे।

“अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं।”

**हेनरी फ़ोर्ड** (1863-1947)

क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहे, वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहे, वह काम कर सकते हैं। हो सकता है, अतीत में आपने इस बात को कम आँका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के

अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहे, बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़। आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं, उसके प्रति जागरूक बनें।

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

क्या इसकी कोई सीमा है? बिलकुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं। हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएँ, योग्यताएँ, प्रतिभाएँ और शक्तियाँ असीमित हैं।

## आपने विचारों के बारे में जागरूक बनें

आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है।

आपका मस्तिष्क भाष की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है। फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं, तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है।

आप किस तरह ज्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहरकर खुद से पूछें, “मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? मैं इस समय क्या

महसूस कर रहा हूँ?” जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं, आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं।

इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएँ। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, “याद रखने को याद रखें!” यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया है।

मैं याद रखने को याद रखूँ, इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे “नुकसान” पहुँचा रहा हो, तो यह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है, जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, या आस-पास तेज़ शेर होता है या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीज़ें मुझे इशारा कर देती हैं कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे ये संकेत मिलते हैं, तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, “मैं क्या सोच रही हूँ? मैं क्या महसूस कर रही हूँ? क्या मैं जागरूक हूँ?” और ज़ाहिर है, जिस पल मैं ऐसा करती हूँ, मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। आप जागरूक बन जाते हैं।

“शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है।”

**चार्ल्स हानेल**

जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं, तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएँगे। आकर्षण के नियम की ज्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल

जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी की किसी चीज़ के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं, तो सबाल पूछें, यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा और फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। जहाँ पन्ना खुलेगा, आपको वहाँ पर वह मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा, जिसकी आपको तलाश है।

सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते, जब तक कि आप जागरूक न बन जाएँ। अपने आस-पास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बनें, क्योंकि हर दिन, हर पल आपको अपने सबालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं, वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं, जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। या आप यूँ ही किसी की बात सुन सकते हैं या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी इबारत हो या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा कौंध जाए। याद रखने को याद रखें और जागरूक बनें।

मैंने अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते हैं या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीजों को खुद से दूर धकेल रहे हैं।

हम चाहे जो चाहते हों, वह प्रेम द्वारा प्रेरित है। यह उन चीजों के प्रति प्रेम की भावनाएँ महसूस करना है - युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत। जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा; वे चीजें तत्काल प्रकट हो जाएँगी।

परंच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेन्सी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीजों से बौखला जाते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हैं, वह आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप

खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा।

खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति (presence) पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएँ। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं, तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे, शायद ज़िंदगी में पहली बार।

जब भी आप खुद को दोषदर्शी आँखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियाँ दूर हो जाएँगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आँखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहें, बुद्धपे की प्रक्रिया को उलटना चाहें या किसी नकारात्मक चीज़ का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे प्रेम करें। आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा।

“पूर्ण सच्चाई यह है कि ‘मैं’ आदर्श और पूर्ण है।

वास्तविक ‘मैं’ आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता।”

**चार्च हालेन**

## रहस्य संक्षेप

- हर चीज़ ऊर्जा है। आप ऊर्जा के बुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवश्यित करके हर मनचाही चीज़ पाते हैं।
- आप आध्यात्मिक जीव हैं। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता - यह बस आकार बदलती है। इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा।
- ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ़ अपनी तकदीर के, बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं।
- विचारों की असीमित आवृत्ति आपके लिए उपलब्ध है। समूचा ज्ञान, अधिकार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभवनाओं के रूप में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उर्वे बाहर निकालने का इंतजार कर रही हैं। हर चीज़ आपकी चेतना में है।
- हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं।
- अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं, जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जिसके आप हक्कदार हैं।
- अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज़ को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है।
- आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में, “याद रखने को याद रखें।”

# जीवन का रहस्य

## नील डोनाल्ड वैल्श



लेखक, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और आध्यात्मिक संदेशवाहक

आसमान में ऐसा कोई ब्लैकबोर्ड नहीं है, जिस पर इश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैकबोर्ड नहीं है, जिस पर लिखा हो, “नील डोनाल्ड वैल्श। आकर्षक युवक, जो इक्कीसवीं सदी के पहले हिस्से में रहता था, जो...” और फिर वहाँ खाली जगह है। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे उस ब्लैकबोर्ड को खोजना और पता लगाना है कि इश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है। लेकिन ब्लैकबोर्ड मौजूद ही नहीं है।

आपका उद्देश्य वही है, जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है, जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा, जैसा आप इसे बनाएँगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा।

आपके पास अपने जीवन के ब्लैकबोर्ड को अपनी मनचाही चीजों से भरने का अवसर होता है। अगर आपने इसमें पहले कवरा भर दिया हो, तो उसे साफ़ कर दें। अतीत की हर उस चीज़ को मिटा दें, जो आपका भला नहीं करती है और कृतज्ञ बनें कि वह आपको इस जगह तक और एक नई शुरुआत तक ले आई है। आपके पास एक साफ़ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं - यहीं पर, इसी समय। अपनी खुशी खोजें और उसे जिएँ।

## जैक कैनफील्ड

यह सबक समझने में मुझे कई साल लग गए, क्योंकि मैं बहुत हद तक इस विचार के साथ बड़ा हुआ था कि मुझे कोई काम करना चाहिए और अगर मैं उसे नहीं कर रहा हूँ, तो ईश्वर मुझसे खुश नहीं होंगे।

जब मैं सचमुच समझ गया कि मेरा पहला लक्ष्य खुशी महसूस करना है, तो मैं सिर्फ़ वही काम करने लगा, जिससे मुझे खुशी मिलती थी। मेरा प्रिय वाक्य है : “अगर इसमें मज़ा नहीं आता है, तो इसे मत करो!”

## नील डोनाल्ड वैल्श

खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हँसी। यहीं तो असली बात है। अगर आपको एक घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है, तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है, तो वैसा करें।

## जैक कैनफील्ड

अपनी बिल्ली को थपथपाते समय में आनंद की अवस्था में होता हूँ। प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय में आनंद की अवस्था में होता हूँ। इसलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रखना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखना होता है। इसके बाद मेरी मनचाही चीज़ अपने आप प्रकट हो जाती है।

वही काम करें, जो आपको पसंद हों। उनसे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, तो खुद से पूछें, “मेरी खुशी क्या है?” जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीजों, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और अवसरों की बाढ़ ला देगा, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं।

## डॉ. जॉन हेजलिन

आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईधन होती है।

इसी समय खुश बनें। इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आप यही इकलौती चीज़ सीखते हैं, तो आपने रहस्य के सबसे महान् अंश को जान लिया है।

## डॉ. जॉन ग्रे

जो भी चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है, वह हमेशा और ज्यादा अच्छाई लाएगी।

आप इस बक्त यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब यह आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो, तो ऐसा कर दें। अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो, तो रहने दें। कोई ऐसी चीज़ खोजें, जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झनझना दे।

रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनें, वह सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, यह चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है।

“अपने आनंद का अनुसरण करें और ब्रह्मांड आपके लिए वहाँ भी दरवाज़े खोल देगा, जहाँ कभी सिफ्ऱ दीवारें थीं।”

### ज्ञानसेक्षं कैप्पब्लैट

## लीसा निकोल्स

जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं, तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियामतें बाँटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद संक्रामक बन जाता है।

## डॉ. जो विटाल

मैं लगभग हमेशा से यही कर रहा हूँ - अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूँ - और मैं यह काम दिन भर करता हूँ।

## बॉब प्रॉफ्टर

जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन अद्भुत है! यह जीवनयात्रा शानदार है!

## मेरी डायमंड

आप एक अलग वास्तविकता, एक अलग जीवन में जिएंगे। और लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे, “आप मुझसे अलग क्या करते हैं?” देखिए, इकलौता फ़र्क यह है कि आप रहस्य के ज्ञान के साथ काम करते हैं।

## मॉरिस गुडमैन

फिर आप वह कर सकते हैं, बन सकते हैं और पा सकते हैं, जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे कि यह होना असंभव है।

## डॉ. फ्रेड एलन वोल्फ़्फ़

सच तो यह है कि हम अब एक नए युग में कदम रख रहे हैं। यह वह युग है, जहाँ आखिरी सीमा अंतरिक्ष नहीं है, जैसा “स्टार ट्रैक” में कहा गया है; यह तो मस्तिष्क है।

## डॉ. जॉन हेजलिन

मैं असीमित क्षमता, असीमित संभावनाओं का भविष्य देखता हूँ। यद रखें, हम मस्तिष्क की ज्यादा से ज्यादा 5 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। शत-प्रतिशत मानवीय क्षमता सही शिक्षा का परिणाम है। इसलिए एक ऐसे विश्व की कल्पना करें, जहाँ लोग अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हों। हम कहीं भी जा सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी पा सकते हैं।

इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में हम असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और यह जान लेते हैं कि हम असीमित हैं, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करेंगे, जो खेल, सेहत, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रचनात्मकता के हर क्षेत्र में व्यक्त होगी।

# अपनी भव्यता को बने लगाएँ

## बॉब प्रॉक्टर

खुद को अपनी मनचाही चीज़ के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दाश्निक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कहाँकों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई हैं। वे सभी एक बात जानते थे और वह है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं। और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा समझते जाएँगे।

रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा, जब आप उस बिंदु पर पहुँच जाएँगे जहाँ आपको अभ्यास करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएँगे, आदर्श बन जाएँगे, बुद्धि बन जाएँगे, प्रज्ञा बन जाएँगे, प्रेम और आनंद बन जाएँगे।

## लीसा निकोल्स

आप अपने जीवन में इस मोड़ तक आ चुके हैं, सिफ़र इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई चीज़ कहती रही, “आपको खुशी पाने का हक्क है।” आप दुनिया को कुछ देने, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। आप कल जो थे, उससे ज्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए यहाँ पर हैं।

हर पुरानी घटना, हर पुराना पल आपको इस वर्तमान पल के लिए तैयार कर रहा था। कल्पना करें कि आपके पास अब जो ज्ञान आ चुका है, उससे आप आगे क्या कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप खुद अपनी तकदीर बनाते हैं। तो आप कितना कुछ कर सकते हैं? आप कितना कुछ बन सकते हैं? आप सिफ़र अपने अस्तित्व से कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं? आप इस पल के साथ

क्या करेंगे? आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे? कोई दूसरा आपके बास पर डांस नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपका गाना नहीं गा सकता, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहे जो हों, आप चाहे जो करते हों, आपका असली समय शुरू होता है अब!

## माइकल बर्नार्ड बेकविथ

मैं यकीन करता हूँ कि आप महान हैं, कि आपमें कोई शानदार गुण है, भले ही आपकी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ हो, भले ही आप खुद को कितना भी जवान या बूढ़ा समझते हों। जिस पल आप “सही तरीके से सोचना” शुरू करेंगे, दुनिया से भी ज्यादा बड़ी आंतरिक शक्ति आपके भीतर प्रकट होने लगेगी। यह आपके जीवन पर छा जाएगी। यह आपको भोजन देगी। यह आपको वस्त्र देगी। यह आपको मार्गदर्शन देगी, संरक्षण देगी, दिशा दिखाएगी, आपके अस्तित्व को पोषण देगी। बशर्ते आप इसे ऐसा करने दें। पक्की गारंटी है।

यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए धूमती है। समुद्र में ज्वार-भाटा आपके लिए आता है। पक्षी आपके लिए गाते हैं। सूर्य आपके लिए उगता और अस्त होता है। सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज़ जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज़ जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नज़र डालें। आपके बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आपने अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं। आप साम्राज्य के वारिस हैं। आप जीवन की पूर्णता हैं। और अब आप रहस्य जान चुके हैं।

हमेशा खुश रहें।

“यह रहस्य उन सभी चीजों का जवाब है, जो हैं  
और हमेशा रहेंगी।”

रैफ़ वाल्डो हमर्स्मिन

# । रहस्य लक्षण

- आपके पास अपने जीवन के बैंकबोर्ड को अपनी मनचाही चीज़ से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है।
- आपको जो इकलौता काम करना है, वह है इस समय अच्छा महसूस करना।
- आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
- अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है।
- हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे, तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे।
- वह काम करें, जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो यूँ, “मेरी खुशी क्या है?” जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आप खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं।
- अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है, यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी हो, सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है।

*The Secret*  
रहस्य

राँडा बर्न

अनुवाद : डॉ. सुधीर दीक्षित



मंजुल पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड